



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 6—अगस्त 12, 2011 (श्रावण 15, 1933)
No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 6—AUGUST 12, 2011 (SRAVANA 15, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110101, दिनांक 19 जुलाई 2011

शुद्धि-पत्र

सं. ए-22019/1/2010-पीएमई--इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13.06.2011, जिसके द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्यों का कार्यकाल दिनांक 31.05.2012 तक बढ़ाया गया है, में संशोधन करते हुए क्रमांक 5 पर उल्लिखित डॉ. जीन ड्रेजे, जी.बी. पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद का नाम हटाया जाता है और क्रमांक 4 को "प्रो. प्रमोद टण्डन, कुलपति, नार्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग" के स्थान पर "प्रो. प्रमोद टण्डन, नार्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग" पढ़ा जाये।

पी.के. बाली, अवर सचिव

दिनांक 21 जुलाई 2011

सं. ए-22012/1/2011-पीएमई--राष्ट्रपति, श्री संजय लोहिया आईएएस (एएम : 1994) को प्रधान मंत्री कार्यालय में दिनांक 20 जुलाई 2011,

(771)

(पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, इसमें से जो भी पहले हो, निदेशक नियुक्त करती हैं।

पी.के. बाली, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 2011

सं. आरएस./3/7/2011/1/34-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में संयुक्त निदेशक (संपादन और अनुवाद) के ग्रेड में कार्यरत निम्नलिखित व्यक्तियों को 20 अप्रैल, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 37,400--67,000/- रु. के वेतन बैंड-4 + 8,700/- रु. के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ निदेशक (संपादन और अनुवाद) के ग्रेड में नियमित आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है:--

1. श्री चन्द्र शेखर मिश्र

2. श्री बीरेन्द्र कुमार

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आरएस./3/7/1/2011/35-कार्मिक--श्रीमती पूनम साहनी, जिन्हें पहले दिनांक 24 फरवरी, 2011 की अधिसूचना सं. आरएस./3/7/1/2011/17-कार्मिक द्वारा राज्य सभा सचिवालय में स्वस्थाने आधार पर उप निदेशक (संपादन और अनुवाद) के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को अब 20 अप्रैल, 2011 के पूर्वाह्न से उक्त ग्रेड में नियमित रिक्ति पर समायोजित किया गया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

सं. आरएस./3/7/1/2011/36-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत सहायक निदेशक (संपादन और अनुवाद), श्री दिनेश चन्द्र शर्मा को 20 अप्रैल, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 + 7,600/- रु. के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ उप निदेशक (संपादन और अनुवाद) के ग्रेड में नियमित आधार पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

एस. रंगराजन, उप निदेशक

दिनांक 19 जुलाई 2011

सं. आरएस./6/4/2011/55-कार्मिक--श्री प्रभु, जिन्हें उद्योग संबंधी समिति के अध्यक्ष (श्री तिरुची शिवा) के वैयक्तिक स्टाफ में सह-पदावसान आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, की सेवाएं 9 मई, 2011 के अपराह्न से समाप्त की जाती हैं।

एस. रंगराजन, उप-निदेशक

सं. आरएस./6/4/2011/56-कार्मिक--श्री बी. राजकांत को 10 मई, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक के लिए राज्य सभा सचिवालय में उद्योग संबंधी समिति के अध्यक्ष (श्री तिरुची शिवा) के वैयक्तिक स्टाफ में 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड-3 + 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन में वरिष्ठ निजी सचिव नियुक्त किया गया है।

2. श्री बी. राजकांत की नियुक्ति उद्योग संबंधी समिति के वर्तमान अध्यक्ष के विवेकाधीन है और उनके कार्यकाल के समापन के साथ ही समाप्त हो जाएगी।

एस. रंगराजन, उप-निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 2011

सं. आरएस./3/1(3)/2011/54-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में कार्यरत निदेशक श्री पी.पी.के. रामाचार्युलु को 15 जुलाई, 2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक इस सचिवालय में 37,400--67,000/- रु. के वेतन बैंड-4 + 10,000/- रु. के ग्रेड वेतन और नियमों के अधीन स्वीकार्य सामान्य भत्तों के साथ तदर्थ आधार पर संयुक्त सचिव के ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

संदीप मिश्रा, सहायक निदेशक

योजना आयोग

नई दिल्ली, 30 मार्च 2011

सं. एफ-6(2148)/2010-प्रशा.1--योजना आयोग की दिनांक 20.12.2010 की समसंख्यक अधिसूचना और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं. 12016/3/जेएजी/2010-आईएसएस दिनांक 17.03.2011 के अनुसरण में सुश्री वंदना मारवाह, तदर्थ उपसलाहकार, 17.03.2011 से अगले आदेशों तक, योजना आयोग में उपसलाहकार के रूप में नियमित आधार पर पदोन्नत की जाती हैं।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 4 अप्रैल 2011

सं. एफ-6(2157)/2011-प्रशा.1--आर्थिक कार्य विभाग की फाईल सं. 13016/3/2011-आईईएस से जारी दिनांक 28.03.2011 के आर्थिक मामले विभाग के आदेश सं. टी-7/2011 के अनुसरण में सुश्री एन. ममता शंकर, आईईएस की एनएफएसजी अधिकारी, ने दिनांक 01.04.2011 (पूर्वाह्न) से वेतन वर्ग-4 अर्थात् रु. 37,400--67,000/- + 8,700/- रु. ग्रेड वेतन में योजना आयोग में निदेशक के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 5 अप्रैल 2011

शुद्धि-पत्र

सं. एफ-6(2148)/2010-प्रशा.1--योजना आयोग की दिनांक 30.03.2011 की समसंख्यक अधिसूचना के संदर्भ में, सुश्री वंदना मारवाह, नियमित आधार पर योजना आयोग में उपसलाहकार के बारे में नियमित आधार पर पदोन्नति की दिनांक को 17.03.2011 के स्थान पर 07.03.2011 पढ़ा जाए।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 28 अप्रैल 2011

सं. ए-43011/07/2010-प्रशा.1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश संख्या 7/1/2011-ईओ(एमएम.1) दिनांक 21.02.2011 के अनुसरण में श्री पार्थसारथी रेड्डी चेवुरु, आईआरएसईई. (1998) ने केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आधार पर, योजना आयोग में, 28.04.2011 (पूर्वाह्न) से चार वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उप सचिव का पदभार संभाल लिया है।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 6 जुलाई 2011

सं. एफ-6(2161)/2010-प्रशा.1--आर्थिक मामले विभाग की फाईल सं. 13016/3/2011-आईईएस से जारी किए गए दिनांक 01.07.2011 के आदेश सं. टी-19/2011 के अनुसरण में श्री कुमार वी. प्रताप, आईईएस

के एनएफएसजी अधिकारी, ने वेतन बैंड-4 अर्थात् रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड वेतन 8,700/- रु. में योजना आयोग में 01.07.2011 (पूर्वाह) को निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

जी. राजीव, अवर सचिव

दिनांक 11 जुलाई 2011

सं. एफ-6(2162)/2011-प्रशा. I--योजना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 4 जुलाई, 2011 के पत्रांक 7/1/2011-ई.ओ.(एस. एम. 1) के अनुपालन में तथा उनके द्वारा योजना आयोग में सलाहकार (स्वास्थ्य) के पदभार ग्रहण करने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, डॉ. राकेश सरवाल, आई.ए.एस. (एम.टी.: 88) को योजना आयोग में सलाहकार (स्वास्थ्य) के पद पर दिनांक 07 जुलाई, 2011 के अपराह से दिनांक 31.05.2014 तक के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

जी. राजीव, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2011

सं. ए-20012/408/82-प्रशा-V/IV--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, श्रीमती प्रमिला माथुर, नियमित सहायक एवं तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में स्थानापन्न दिनांक 30 जून 2011 के अपराह से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगी।

पी.सी. भारद्वाज, अवर सचिव

दिनांक 12 जुलाई 2011

सं. ए-32013/03/2011-प्रशा.3--राष्ट्रपति जी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10 जून, 2011 के का.ज्ञा. सं. 5/27/2010-सीएस-II(ए) के द्वारा जोनिंग स्कीम के अन्तर्गत चयन सूची वर्ष 2009 की वरीयता कोटे हेतु उनका नाम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग के आशुलिपिक श्रेणी 'क एवं ख' (आमेलित) की सूची में शामिल किए जाने तथा योजना आयोग में नामित किए जाने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के श्रीमती मधु मेहता, आशुलिपिक श्रेणी 'ग', स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को योजना आयोग में आशुलिपिक श्रेणी 'क एवं ख' (आमेलित) के पद पर वेतन बैंड पीबी-2, रु. 9,300--34,800/- के समानान्तर ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में नियमित आधार पर दिनांक 01.07.2011 के अपराह से नियुक्त करते हैं।

पी.सी. भारद्वाज, अवर सचिव

दिनांक 14 जुलाई 2011

सं. ए-32014/02/2007-प्रशा.3--राष्ट्रपति जी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 के का.ज्ञा. सं. 5/21/

2010-सीएस-II के द्वारा वेतन बैंड पीबी-2, रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड वेतन रु. 4,800/- के वेतन ढांचे में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के पद पर पदोन्नत करते हुए योजना आयोग में नामित किए जाने के परिणामस्वरूप, डाक विभाग, संचार एवं सूचना तकनीकी मंत्रालय के नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'ग', श्री सी.पी. देवराजन को इस आयोग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड 'क एवं ख' (आमेलित) [निजी सचिव] के पद पर तदर्थ आधार पर दिनांक 30.06.2011 के अपराह से 31.12.2011 तक अथवा नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'क एवं ख' (आमेलित) के उपलब्ध होने तक अथवा इस पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. श्री सी.पी. देवराजन की आशुलिपिक ग्रेड 'क एवं ख' (आमेलित) के पद पर यह नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और यह उन्हें इसी ग्रेड में बने रहने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड 'क एवं ख' (आमेलित) के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में सम्मिलित किए जाने या नियमित रूप से नियुक्त किए जाने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड 'क एवं ख' (आमेलित) श्रेणी में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।

पी.सी. भारद्वाज, अवर सचिव

दिनांक 15 जुलाई 2011

सं. ए-32013/02/2011-प्रशा.-III--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मार्च, 2011 तथा 02 जून, 2011 के का.ज्ञा. सं. 3/1/2011-सीएस-II (ए) (भाग) के अनुसरण में तथा संबंधित संवर्ग एककों से उनके कार्यमुक्त हो जाने के उपरान्त, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा समूह के उनके नाम के सामने दर्शाए गए संवर्ग एककों के निम्नलिखित निजी सचिवों को पी.बी.-3, रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/- के वेतनमान में योजना आयोग में प्रधान निजी सचिव के रूप में तदर्थ आधार पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से दिनांक 30.09.2011 तक अथवा इन पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम	श्रेणी	निजी सचिव ग्रेड में चयन सूची वर्ष	संवर्ग एकक जहां निजी सचिव ग्रेड में नियमित रूप से कार्यरत थे	योजना आयोग में प्रधान निजी सचिव के पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि
----------	-------------------	--------	-----------------------------------	--	---

(श्री/श्रीमती/कुमारी)

1.	संगीता जैन	सामान्य	1998	संचार	06.07.2011 (अपराह)
2.	शारदा कपूर	सामान्य	1995	डाक	08.07.2011 (अपराह)
3.	लता वेंकटेशन	सामान्य	1999	सूचना एवं प्रसारण	13.07.2011 (पूर्वाह)

2. उपर्युक्त अधिकारियों की प्रधान निजी सचिव ग्रेड पर यह नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और यह उन्हें इसी ग्रेड में बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग के प्रधान निजी सचिव ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।

पी. सी. भारद्वाज, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 2011

सं. ए-32013/4/2006-प्रशा.-IV (वि.का.) खंड-II--राष्ट्रपति, विभिन्न संवर्गों के निम्नलिखित नियमित निजी सचिवों को उनके नाम के समक्ष उल्लिखित तारीख से इस विभाग में पीबी-3, रु. (15,600--39,100/-) में रु. 6,600/- ग्रेड वेतन सहित तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम और पदनाम	संवर्ग, जिसमें अभी तक कार्यरत थे	इस विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री अनूप सेठ	कृषि और सहकारिता	05.07.2011
2.	श्री टी.सी. स्कारिया	श्रम और रोजगार (डी.जी.एफ.ए.एस.एल.आई., मुम्बई)	04.07.2011

2. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.05.2011 और 02.06.2011 के आदेश सं. 3/1/2011-सी.एस.-II (ए) के अनुसार, उपर्युक्त नियुक्तियां पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई हैं और दिनांक 30.09.2011 तक की अवधि तक अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए हैं और इनसे उन्हें ग्रेड में निश्चित समय तक बने रहने अथवा प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

आशा सोटा, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई 2011

सं. ए-20/जी/3002-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्रीमती सुचित्रा गोस्वामी, निदेशक को दिनांक 15 जुलाई, 2011 के पूर्वाह्न से उन्हें केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत तैनात किए जाने तक वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में संयुक्त सचिव (स्वस्थाने) के रूप में नियुक्त करती हैं।

जे. बी. शर्मा, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 2011

शुद्धि-पत्र

सं. 14015/22/2008-अ.भा.से.-I--कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी किए गए दिनांक 25 मई 2011 के आदेश सं. 14015/22/2008-अ.भा.से.-I में आंशिक आशोधन करते हुए, इस आदेश के अंतिम पैरा में श्री राम मोहन यादव के नाम के स्थान पर श्री दिलीप कुमार गुप्ता को प्रतिस्थापित किया जाए।

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 2011

सं. 14013/08/2011-अ.भा.से.-III--भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश राज्य संवर्ग में रखे गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में, उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से नियमित करती हैं :-

क्रम अधिकारी का नाम	बैच	स्थायी करने की तारीख
---------------------	-----	----------------------

(सर्वश्री)

1. सुनीता त्रिपाठी	2000	04.09.2009
2. रेनु तिवारी	2000	04.09.2009
3. श्याम सिंह कुमारे	2000	04.09.2009
4. मथुरेश बाबू ओझा	2001	04.09.2009

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

सं. 14012/21/2011-अ.भा.से.-III--भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, हिमाचल प्रदेश राज्य संवर्ग में रखे गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में, उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से नियमित करती हैं :-

अधिकारी का नाम	बैच	स्थायी करने की तारीख
----------------	-----	----------------------

श्री शैनामोल ए	2007	18.08.2009
----------------	------	------------

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

सं. 14012/06/2010-अ.भा.से.-III--भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, गुजरात राज्य संवर्ग में रखे गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में, उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से नियमित करती हैं :--

क्रम अधिकारी का नाम सं.	बैच	स्थायी करने की तारीख
(सर्वश्री)		
1. अजय कुमार	2006	29.08.2008
2. जेनू दीवान	2006	11.12.2008
3. सुश्री विप्रा भल	2006	29.08.2008

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

सं. 14013/04/2010-अ.भा.से.-III--भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, महाराष्ट्र राज्य संवर्ग में रखे गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2000 बैच के सदस्य स्वर्गीय श्री एफ. वी. वसावे को दिनांक 23.02.2010 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियमित करती हैं।

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

कार्यालय उप प्रमुख न्याचार (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2011

सं. डी-III/460/सी एफ-02/2011--राष्ट्रपति, बेंगलुरु में श्री लंका लोकतांत्रिक जन गणराज्य के मानद कौंसल के रूप में डॉ. केशव रेड्डी सुधाकर की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

डॉ. केशव रेड्डी सुधाकर के कौंसली क्षेत्राधिकार में कर्नाटक राज्य होगा, जिसका केन्द्र बेंगलुरु होगा।

एस. इन्बशेखर, उप प्रमुख न्याचार (एफ)

दिनांक 18 जुलाई 2011

सं. डी-III/460/सी एफ-12/2011--राष्ट्रपति, मुंबई में मलेशिया के प्रधान कौंसल के रूप में श्री मोहम्मद हातिमी बिन अब्बास की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

श्री मोहम्मद हातिमी बिन अब्बास के कौंसली क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा राज्य होंगे, जिसका केन्द्र मुंबई होगा।

एस. इन्बशेखर, उप प्रमुख न्याचार (एफ)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई 2011

सं. 57 (फा. सं. ए-19012/10/2011-प्रशा.-I)--राष्ट्रपति, श्री सुरेश कुमार, भारतीय राजस्व सेवा (सी. व सी. ई. : 93) को दिनांक 06.07.2011 के (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हों, राजस्व विभाग में, के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 58 (फा. सं. ए-19011/12/2011-प्रशा.-I)--राष्ट्रपति, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय में श्री सत्येन्द्र सिंह राणा, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 75014) को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) के सदस्य के रूप में, भारत सरकार के विशेष सचिव की स्थिति के साथ, रु. 80,000/- (नियत) के वेतनमान में दिनांक 08.07.2011 के (अपराह्न) और अगले आदेशों या उनकी अधिवर्षिता तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

2. श्री सत्येन्द्र सिंह राणा, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 75014) की केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) के सदस्य के रूप में नियुक्ति निम्न मूल आवेदनों (ओ.ए.) के अंतिम परिणाम के अध्यधीन है :--

(i) सुश्री जे. डी. सहाय, मुख्य आयुक्त (सेवा-निवृत्त) द्वारा माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) अहमदाबाद पीठ (अब प्रधान पीठ, नई दिल्ली को अंतरित) के समक्ष दाखिल ओ. ए. सं. 40/2008)

(ii) श्री लक्ष्मण दास, सी.सी.आई.टी. द्वारा, कैट, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष दाखिल ओ.ए. संख्या 3823/2010

(iii) श्री आर. भारद्वाज, सी.सी.आई.टी. द्वारा कैट, प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष दाखिल ओ.ए. संख्या 4043/2010

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2011

सं. 31/2011 (फा. सं. ए-19013/26/2011-प्रशा.-Iक)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.05.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/1/2011-सीएस-II(ए)(पार्ट) और व्यय विभाग के दिनांक 12 जुलाई, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-32014/4/2010-सी.ए.एस. के अनुसरण में राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के नियमित निजी सचिव श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा को दिनांक 04.07.2011 (पूर्वाह्न) से दिनांक 30.09.2011 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पद भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपए + ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए), में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के प्रधान निजी सचिव (प्र.नि.स.) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. प्रधान निजी सचिव के पद पर श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा की पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है तथा यह उन्हें उस पद पर अनिश्चित काल तक बने रहने या प्रधान निजी सचिव के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

रेणुका नाम्बियार, अवर सचिव

सं. 32/2011 (फा. सं. ए-19013/25/2011-प्रशा.-Iक)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 3/1/2011-सीएस-II और व्यय विभाग (सी ए एस) के दिनांक 08 जुलाई, 2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए-32014/4/2010-सी.ए.एस. के अनुसरण में राष्ट्रपति, उच्च शिक्षा विभाग की केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की नियमित निजी सचिव श्रीमती प्रेमलता नागर को दिनांक 01.07.2011 (पूर्वाह्न) से दिनांक 30.09.2011 तक की अवधि के लिए अथवा नियमित आधार पर पद भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपए + ग्रेड वेतन 6,600/- रुपए), में वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की प्रधान निजी सचिव (प्र.नि.स.) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. प्रधान निजी सचिव के पद पर श्रीमती प्रेमलता नागर की पदोन्नति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है तथा यह उन्हें उस पद पर अनिश्चित काल तक बने रहने या उस पद में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

रेणुका नाम्बियार, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 2011

सं. ए-22011/2/2008-प्रशा.-II--राष्ट्रपति, व्यय विभाग (सीएस) के दिनांक 11.07.2011 के का.ज्ञा. सं. 32015/4/2010-सीएस के अनुसरण में, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 30.09.2011 तक अथवा नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं :-

क्रम अधिकारियों के नाम सं.	क्रम अधिकारियों के नाम सं.	क्रम अधिकारियों के नाम सं.	क्रम अधिकारियों के नाम सं.
1	2	1	2
सर्वश्री	सर्वश्री		
1. अशोक कुमार	6. मनोज मनु		
2. बी. एन. सैनी	7. श्रीमती नीलम सिब्बल		
3. भाष्कर चक्रवर्ती	8. श्रीमती नीरा बुद्धिराजा		
4. श्रीमती डी. के. कालरा	9. रमेश प्रसाद		
5. किशन लाल मीणा	10. सुश्री रीता सचदेवा		

1	2	1	2
11. श्रीमती साधना शर्मा	19. सुश्री ई. कूजर		
12. संजय कुमार झा	20. संतोष कुमार		
13. श्रीमती सरिता गुलाटी	21. एस. सुब्रमणियम		
14. वाई. वाई. पराते	22. हृदय नंद साह		
15. सुश्री स्वर्ण रूद्रा	23. सुश्री नीलम गांधी		
16. सुश्री शिखा दास	24. सुश्री प्रतिभा शर्मा		
17. सुश्री सतिन्दर जीत कौर	25. डी. के. असिजा		
18. सुनील कुमार मांडी	26. जस्टिन खालको		

अनुभाग अधिकारी के रूप में उपरोक्त सहायकों की तदर्थ नियुक्तियां निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन होगी :-

- (क) यह तदर्थ नियुक्ति, कामचलाऊ व्यवस्था होने के कारण, इससे अधिकारियों को अनिश्चित काल तक ग्रेड में बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने या अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा पेश करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
- (ख) यह तदर्थ व्यवस्था तब तक चलती रहेगी जब तक कि वरिष्ठता कोटा या सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के जरिए या अगले आदेशों तक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते। अगर तदर्थ रूप से नियुक्त व्यक्ति नियमित नियुक्ति हेतु इन दोनों श्रेणियों में अर्ह नहीं होते, तो उन्हें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा आर्बिट्रित उनके संबंधित संवर्ग में उनके (नियमित अनुभाग अधिकारी) द्वारा कार्यभार संभालने की तारीख से सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

अशोक कुमार, अवर सचिव

दिनांक 20 जुलाई 2011

सं. ए-19011/7/2011-प्रशा. II--राष्ट्रपति, श्री वेणु राजामणि (आईएफएस : 86) को आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में 15 जून, 2011 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

अशोक कुमार, अवर सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 15 जुलाई 2011

सं. 8/9/2009-डीआरटी--ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण, दिल्ली के अध्यक्ष न्यायमूर्ति जतिन्द्र मोहन मलिक 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर दिनांक 17 जुलाई, 2011 (अपराह्न) से अध्यक्ष, अपीलीय अधिकरण का पदभार छोड़ देंगे।

राजीव शर्मा, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई 2011

सं. ए-32014/2/2011-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नलिखित नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'ग' को उनके नाम के आगे उल्लिखित तारीख से 31.12.2011 तक की अवधि के लिए अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (निजी सचिव) के नियमित आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पदोन्नति के फलस्वरूप पूर्णतः तदर्थ आधार पर 9,300--34,800/- रुपए के पे बैंड-2 + 4,800/- रुपए (ग्रेड वेतन) में वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) (निजी सचिव के रूप में पदनामित) के पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारियों का नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री सौगत दे	30.06.2011
2.	श्री पी. श्याम प्रसाद	01.07.2011

2. उपर्युक्त अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति उन्हें अनिश्चित काल तक इस ग्रेड में बने रहने अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (निजी सचिव) के आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) की चयन सूची में शामिल किए जाने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

मीताली घोष, अवर सचिव

दिनांक 19 जुलाई 2011

सं. ए-12026/4/2008-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित स्थायी सहायकों की पूर्णतः तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति की अवधि को 30 सितम्बर, 2011 या नियमित अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, इसमें से जो भी पहले हो और आगे बढ़ाते हैं :--

1. श्री डी. सी. केम
2. श्री शरद एन. हुलाले
3. श्रीमती उषा गिल
4. श्री नरेन्द्र प्रकाश
5. श्री प्रवीण चन्द्र शर्मा
6. श्रीमती विजय खरात
7. श्री सुनील कुमार
8. श्री टी. बेक
9. श्री के. जे. भट्ट
10. श्रीमती संगीता टोप्पो
11. श्री प्रमोद कुमार वर्मा

2. उपर्युक्त अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति उनको नियमित नियुक्ति का दावा प्रदान नहीं करेगी और इस ग्रेड में अल्प-अवधि के लिए उनके द्वारा की गई सेवा अगले उच्चतर ग्रेड में पदोन्नति के लिए नहीं गिनी जाएगी।

मीताली घोष, अवर सचिव

दिनांक 20 जुलाई 2011

सं. ए-32014/2/2011-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित व्यैक्तिक सहायकों को उनके नाम के सामने उल्लिखित अवधि के लिए अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के नियमित व्यैक्तिक सहायक उपलब्ध होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पूर्णतः तदर्थ आधार पर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति की अवधि
1	2	3
1.	श्रीमती एम. जयलक्ष्मी	31.12.2011 तक
2.	श्रीमती कुसुम शर्मा	-यथोक्त-
3.	श्री जी. वी. एस. एस. एल. नरसिंहम	-यथोक्त-
4.	श्री लल्लन मांझी	-यथोक्त-
5.	श्री नरेन्द्र कुमार	-यथोक्त-
6.	श्री विनोद चन्द्र ओबेराय	-यथोक्त-
7.	श्री जगतार सिंह	-यथोक्त-
8.	श्रीमती रेणु सिंह	-यथोक्त-
9.	श्री धीरज कुमार	-यथोक्त-
10.	श्रीमती श्रीपदा स्वर्णलता	-यथोक्त-
11.	श्रीमती इति मिश्र	-यथोक्त-
12.	श्रीमती शशि मोंगिया	-यथोक्त-
13.	श्रीमती निर्मल शर्मा	-यथोक्त-
14.	श्रीमती नीलम प्रभा सरना	-यथोक्त-
15.	श्रीमती रीता टण्डन	-यथोक्त-
16.	श्रीमती रजनी सेठी	-यथोक्त-
17.	श्री राजेन्द्र सिंह	-यथोक्त-
18.	श्रीमती शशि बाला	-यथोक्त-
19.	श्रीमती सुमन	-यथोक्त-
20.	श्रीमती शारदा शिव कुमार	-यथोक्त-

1	2	3
21.	श्रीमती रेखा मधोक	31.12.2011 तक
22.	श्रीमती सुषमा गुप्ता	-यथोक्त-
23.	श्रीमती रेणुका	-यथोक्त-
24.	श्री अरविन्द भारद्वाज	-यथोक्त-
25.	श्रीमती शांता शर्मा	-यथोक्त-

2. उपर्युक्त अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'क' एवं 'ख' (विलयित) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। ये तदर्थ नियुक्तियां कोई कारण बताए बिना, किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

दिनांक 22 जुलाई 2011

सं. ए-12023/3/2004-एडी-II (भाग-II)-राष्ट्रपति, 19 मई, 2011 के आदेश सं. 12016/2/2011-एसएसएस के तहत सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से स्थानांतरण के फलस्वरूप अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा के सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-I (तदर्थ) श्री विनय कुमार को दिनांक 1.7.2011 (पूर्वाह्न) से 4,600/- रु. के ग्रेड वेतन के साथ 9,300--34,800/- रुपए के पे बैंड-2 में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय में वरिष्ठ अन्वेषक के पद पर नियुक्त करते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 जुलाई 2011

सं. ए-32011/3/2011-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.03.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/2/2011-सीएस. II (क) और इस मंत्रालय के दिनांक 8.7.2011 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के निम्नलिखित नियमित वैयक्तिक सहायकों को दिनांक 8.7.2011 की पूर्वाह्न से कारपोरेट कार्य मंत्रालय में तदर्थ आधार पर सीएसएसएस के निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं :--

1. श्री एस. सी. पुरी
2. श्रीमती दुर्गेश नन्दिनी
3. श्रीमती नमिता बक्शी
4. श्री संजीव कुमार आनन्द

जे. एस. गुप्ता, अवर सचिव

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2011

सं. ए-45011/2/2011-स्थापना-I--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का. ज्ञा. सं. 5/8/2006-सीएस-II, दिनांक 1.7.2011 के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित समूह 'ग' आशुलिपिकों की तदर्थ आधार पर नियुक्ति को 31.12.2011 (क्र. सं. 15 को छोड़कर) तक या नियमित आधार पर उक्त पदों के भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले होगा पूर्णतः तदर्थ आधार पर औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय संवर्ग में आशुलिपिक समूह 'क' एवं 'ख' (विलयित) (निजी सचिव) के रूप में पे बैंड-2, वेतनमान 9,300--34,800/- रुपए + ग्रेड पे 4,800/- रुपए में आगे बढ़ाते हैं :--

क्र. सं.	नाम	तैनाती	टिप्पणी
1	2	3	4
श्री/श्रीमती/कुमारी			
1.	अनुप कुमार महाजन	आर्थिक सलाहाकार का कार्यालय	
2.	सुनीता	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	
3.	पी. सी. शर्मा	भारी उद्योग विभाग	
4.	संजय नारंग	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	
5.	एम. एस. विश्वनाथन	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	
6.	सुनील कुमार	भारी उद्योग विभाग	
7.	सुरेन्द्र जीत कौर आनंद	लोक उद्यम विभाग	
8.	के. ई. मोहनन	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	
9.	प्रेमलता चुध	भारी उद्योग विभाग	
10.	सुनीता ठाकुर	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	
11.	मीना जोली	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	
12.	अजय सरीन	लोक उद्यम विभाग	
13.	सुखबीर सिंह नेगी	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	
14.	सविता यादव	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	
15.	विजय कुमार चड्ढा	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	30.11.2011 तक अर्थात् अधिवर्षिता वय तक

1	2	3	4
16.	हरविन्दर कौर अहलुवालिया	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	
17.	त्रिलोचन सिंह	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	
18.	सुदेश खुराना	भारी उद्योग विभाग	
19.	पवन कुमार	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	
20.	सुमन सूद	भारी उद्योग विभाग	
21.	भारत मोहन	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	
22.	महाबीर सिंह रावत	प्रशुल्क आयोग	
23.	सम्पत सिंह	प्रशुल्क आयोग	
24.	अनिल कुमार	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	
25.	पवन ऐरी	भारी उद्योग विभाग	
26.	सुमित्रा दास	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	
27.	जितेन्द्र कुमार	भारी उद्योग विभाग	
28.	एल. के. सूर्यवंशी	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	
29.	तृप्ता मित्रा	भारी उद्योग विभाग	
30.	रविकांत जैन	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	
31.	संजीव कुमार कपलिस	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	
32.	कृष्ण कुमार सचदेवा	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	
33.	दिनेश कुमार	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	
34.	जे. भुवनेश्वरी	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	
35.	तारा सिंह अस्वाल	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	
36.	अनीता कालरा	लोक उद्यम विभाग	
37.	सीमा आहूजा	लोक उद्यम विभाग	
38.	शशि चड्ढा	भारी उद्योग विभाग	
39.	रणधीर सिंह	लोक उद्यम विभाग	
40.	सुचिता बंगा	प्रशुल्क आयोग	
41.	मंजू एस. चड्ढा	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	

2. उपर्युक्त नियुक्तियां पूर्णतः तदर्थ आधार पर की गई हैं और इससे अधिकारी को उक्त पद पर अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित

नियुक्ति के लिए निजी सचिव की चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा। सरकार के पास कोई कारण बताए अथवा संबंधित अधिकारी को कोई नोटिस दिए बिना तदर्थ नियुक्ति को रद्द करने का अधिकार है।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 जुलाई 2011

सं. ए-19011/5/76-एचआर-II--सक्षम प्राधिकारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15 मार्च, 2011 के कार्यालय आदेश सं. 4/3/2010-सीएस.1 (डी) के अनुसरण में श्री एस. एल. बजाज (सेवानिवृत्त) को केन्द्रीय सचिवालय सेवा की वर्ष 1995 की चयन सूची के प्रवरण ग्रेड (उप सचिव) में शामिल करते हैं।

2. श्री एस. एल. बजाज (सेवानिवृत्त) सीएसएल सं. 2312 (डीएसएसएल 1995), क्रम सं. 54 (ए) के नाम को श्री वी. के. ढिंगरा, सीएसएल सं. 2309, क्र. सं. 54 से नीचे और श्री एम. वेंकटरमन, एससीएल सं. 2318, क्र. सं. 55 से ऊपर रखा गया है।

3. श्री एस. एल. बजाज, जो 30.11.2002 को अधिवर्षिता प्राप्त कर चुके हैं, पदोन्नति की अवधि से उन भुगतानों/बकायों को प्राप्त करने के पात्र हैं जो उनके कनिष्ठों नामतः श्री एम. वेंकटरमन, श्री बी. के. अरोड़ा, श्री एम. एस. माथुर आदि को दिए गए हैं, उन्हें उनकी अधिवर्षिता की तारीख तक अनुवर्ती लाभ, यदि कोई हो, भी दिए जाएंगे, यदि बकाया और अनुमेय हों तथा तदनुसार उनके पेंशन संबंधी लाभों की भी मौजूदा नियमों के अनुसार पुनः गणना की जाएगी।

सौमेन्द्र चन्दा, अवर सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई 2011

सं. 12/3/2009-ए.एस.ओ.--इस मंत्रालय की दिनांक 5 जनवरी, 2010 की अधिसूचना सं. 12/3/2009-एसओ तथा 5 अगस्त, 2010 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में राष्ट्रपति, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव, श्री रजनीश कुमार महाजन, भा.प्र.से. (बिहार : 87) के कार्यकाल को 23.09.2011 तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

शरद घोड़के, निदेशक

दिनांक 21 जुलाई 2011

सं. 12/6/2011-एसओ.--राष्ट्रपति, श्री धर्मेन्द्र प्रकाश, भा.व.से. (नागालैण्ड : 1989) को कोयला मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल) के विशेष कार्याधिकारी के रूप में निदेशक स्तर पर दिनांक 18 जुलाई,

2011 (अपराह) अर्थात् उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से और उनके स्वीकार्य कार्यकाल की शेष अवधि अर्थात् 15.06.2014 तक अथवा मंत्री जी के सहपर्यन्त अथवा मंत्री के विशेष कार्याधिकारी के रूप में उनके कार्य करना बन्द करने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी सबसे पहले हो, नियुक्त करते हैं।

शरद घोड़के, निदेशक

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
(लोक उद्यम विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 जुलाई 2011

सं. ए-12023/1/2011-प्रशासन--राष्ट्रपति, सुश्री स्वर्णमाला रावला, भारतीय प्रशासनिक सेवा (एमपी:80) को सचिव, सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में अपर सचिव के रैंक व वेतनमान में दिनांक 6.7.2011 के अपराह से और आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

ए. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई 2011

सं. ए. 12011/8/2008-स्था.--राजभाषा विभाग के दिनांक 31 मई, 2011 के कार्यालय आदेश सं. 5/18/2010-रा भा (एस) और गृह मंत्रालय के दिनांक 22 जुलाई, 2011 के कार्यालय आदेश सं. 20/बी/1677-प्रशा. II के अनुसरण में, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय में श्री ओम प्रकाश, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक को दिनांक 22 जुलाई, 2011 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उपभोक्ता मामले विभाग में 15,600--39,100/- (वेतन बैंड-3) के वेतन बैंड और 5,400/- रु. के ग्रेड वेतन में तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से श्री ओम प्रकाश को ग्रेड में अनिश्चित या नियमित नियुक्ति हेतु चयन सूची में सम्मिलित या ग्रेड में वरियता आदि का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

ओम प्रकाश, उप सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 1 जुलाई 2011

सं. ए-19013/01/11-प्रशा. I (ए)--राष्ट्रपति द्वारा श्री राजेश कुमार वैज्ञानिक 'सी' वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, विभाग को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में प्रतिनियुक्ति आधार पर 15,600--39,100/- रु. के वेतन बैंड (पी बी-3) और 7,600/- रु. के ग्रेड वेतन में वैज्ञानिक 'डी' के पद पर दिनांक 23.06.2011 (पूर्वाह्न) से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा डॉ. एम. पृथ्वीराज के प्रतिनियुक्ति से संप्रत्यावर्तित किए

जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त किया जाता है। उनकी नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.01.1994 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/29/91-स्थापना (वेतन-II), समय-समय पर यथा संशोधित, में अन्तर्निहित अनुदेशों के अनुसार विनियमित होगी।

लता गोपकुमार, अवर सचिव

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 22 जुलाई 2011

विषय : उपाध्यक्ष, सीएसआईआर की नियुक्ति

सं. 1/2(1)/2011-पीडी--सीएसआईआर के नियमों एवं विनियमों के नियम 3(बी) के परंतुक के अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री विलासराव देशमुख, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पदेन उपाध्यक्ष होंगे।

श्री देशमुख ने दिनांक 12 जुलाई, 2011 से अपना पदभार संभाल लिया।

के. जयकुमार, संयुक्त सचिव (प्रशा.)

भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110 011, दिनांक 18 जुलाई 2011

सं. प्र. वै.स./01(02)/2007-प्रशा.--राष्ट्रपति, भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय में प्रथम वैयक्तिक सहायक के रूप में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय संवर्ग की सुश्री आर. भगवती, आशुलिपिक ग्रेड "सी" को उसी कार्यालय में सहायक निजी सचिव के पद पर पे-बैंड 9,300--34,800/- (पीबी-2) ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 18 जुलाई, 2011 के पूर्वाह्न से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. उक्त नियुक्ति डॉ. आर. चिदम्बरम के भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर बने रहने तक तथा को-टर्मिनस आधार पर है।

एम. के. हरिकुमार, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110510, दिनांक 27 जनवरी 2010

सं. 17013/08/2010-आई एफ एस-II--भारतीय वन सेवा (पदोन्नति पर नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 7 के उप-विनियम में निहित उपबंधों के अनुपालन में संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय वन सेवा के मणिपुर कॉर्डर में उपलब्ध पदोन्नति कोट रिक्रियों को भरने के लिए मणिपुर राज्य वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के नामों को शामिल करते हुए मणिपुर राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में वर्ष 2009 के

लिए पदोन्नति चयन सूची का अनुमोदन किया है :--

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम	जन्म तिथि
1.	श्री डब्ल्यू येसकुल सिंह	01.01.1961
2.	श्री एस. बोंबीरीध्वज सिंह	01.03.1957
3.	श्री एल. लुकोई सिंह (एस सी)	10.03.1962
4.	श्री एल. जॉयकुमार सिंह	01.02.1967
5.	श्री के. एस. टॉमविंग (एस टी)	17.01.1969

एस. एस. वधावन, निदेशक (भा.व.से.)

दिनांक 10 जून 2011

सं. 17013/03/2010-आई एफ एस-II--भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, त्रिपुरा राज्य वन सेवा के निम्नलिखित छः अधिकारियों को वर्ष 2009 की चयन सूची के आधार पर भारतीय वन सेवा में तत्काल प्रभाव से सहर्ष नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम, 1966 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत भारतीय वन सेवा के मणिपुर-त्रिपुरा संयुक्त संवर्ग (त्रिपुरा खण्ड) आबंटित करते हैं:--

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम	जन्म तिथि
(सुश्री/श्री)		
1.	बुद्धि देबबर्मा (अ.ज.जा.)	11.01.1963
2.	निरोदे बरन देबनाथ	16.01.1962
3.	चंदन कुमार दास (अ.जा.)	01.03.1960
4.	सुशील देबबर्मा (अ.ज.जा.)	13.02.1962
5.	उर्ध्व त्रिपुरा (अ.ज.जा.)	02.01.1964
6.	रजत कांति दास (अ.जा.)	09.09.1955

एस. एस. वधावन, निदेशक

दिनांक 15 जून 2011

सं. 17013/10/2010-आई एफ एस-II--भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, गुजरात राज्य वन सेवा के निम्नलिखित तीन अधिकारियों को वर्ष 2009 के लिए चयन सूची के आधार पर भारतीय वन सेवा में तत्काल प्रभाव से सहर्ष नियुक्त करते हैं और उन्हें भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियम,

1966 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत भारतीय वन सेवा का गुजरात संवर्ग आबंटित करते हैं:--

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम	जन्म तिथि
(सुश्री/श्री)		
1.	बी. एच. पटेल	29.05.1959
2.	डी. टी. वासावड़ा	08.02.1962
3.	आई. के. छावड़ा	20.09.1957

एस. एस. वधावन, निदेशक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 11 जुलाई 2011

सं. 23012/01/2011-आईएफएस-II--वर्ष 2010--2012 बैच के आईएफएस प्रोबेशनर, श्री जितेन्द्र को अपना नाम बदलकर जितेन्द्र अहलावत करने की अनुमति दी जाती है। अब से सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु वे जितेन्द्र अहलावत के नाम से जाने जाएंगे।

जोसेफ लुइखम, अवर सचिव

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 जून 2011

सं. ए-12012/4/2005-पी.II(.)--दिनांक 18.11.2010 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15 जून, 2011 के आदेश संख्या 5/3/2010-सीएस.आई(यू) द्वारा प्रेषित अनुमोदन सहित पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में के.स.से. के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में श्री जय प्रकाश मीणा की तदर्थ नियुक्ति दिनांक 31.5.2012 तक अथवा नियमित पदधारी के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

2. तदर्थ प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :

- यह तदर्थ प्रोन्नति, अनिश्चित रूप से ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में समावेशन अथवा के.स.से. के ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी;
- यह तदर्थ नियुक्ति, किसी भी समय बिना कारण दिए रद्द की जा सकती है;
- वे अधिकारी जिन्होंने के.स.से. का स्तर 'घ' प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया है/प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, उन्हें छः माह के भीतर स्तर 'घ' प्रशिक्षण में प्रवेश लेना और सफलतापूर्वक पूर्ण करना अपेक्षित है;
- उपरोक्त अधिकारी की यह तदर्थ प्रोन्नति कैट (सीएटी), नई दिल्ली के समक्ष लंबित श्री पी. आर. शर्मा बनाम भारत संघ शीर्षक के ओ. ए. सं. 3294/2009 और श्री पी. एस. भण्डारी बनाम भारत संघ एवं अन्य शीर्षक से ओ.ए. सं. 2674/2009 में अंतिम परिणाम के अध्याधीन होगी।

एम. एल. वाधवानी, अवर सचिव

सं. ए-12012/4/2005-पी.II(.)--दिनांक 30.06.2010 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15 जून, 2011 के आदेश संख्या 5/3/2010-सीएस.आई(यू) द्वारा प्रेषित अनुमोदन सहित पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में के.स.से. के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में श्री समित दत्ता गुप्ता की तदर्थ नियुक्ति दिनांक 31.5.2012 तक अथवा नियमित पदधारी के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

2. तदर्थ प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :

- (i) यह तदर्थ प्रोन्नति, अनिश्चित रूप से ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में समावेशन अथवा के.स.से. के ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी;
- (ii) यह तदर्थ नियुक्ति, किसी भी समय बिना कारण दिए रद्द की जा सकती है;
- (iii) वे अधिकारी जिन्होंने के.स.से. का स्तर 'घ' प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया है/प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, उन्हें छः माह के भीतर स्तर 'घ' प्रशिक्षण में प्रवेश लेना और सफलतापूर्वक पूर्ण करना अपेक्षित है;
- (iv) उपरोक्त अधिकारी की यह तदर्थ प्रोन्नति कैट (सीएटी), नई दिल्ली के समक्ष लंबित श्री पी. आर. शर्मा बनाम भारत संघ शीर्षक से ओ. ए. सं. 3294/2009 और श्री पी. एस. भण्डारी बनाम भारत संघ एवं अन्य शीर्षक से ओ.ए. सं. 2674/2009 में अंतिम परिणाम के अध्याधीन होगी।

एम. एल. वाधवानी, अवर सचिव

सं. ए-12012/4/2005-पी.II(.)--दिनांक 30.06.2010 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15 जून, 2011 के आदेश संख्या 5/3/2010-सीएस.आई(यू) द्वारा प्रेषित अनुमोदन सहित पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में के.स.से. के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में श्री मदन मोहन पांडे की तदर्थ नियुक्ति दिनांक 31.5.2012 तक अथवा नियमित पदधारी के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

2. तदर्थ प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :

- (i) यह तदर्थ प्रोन्नति, अनिश्चित रूप से ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में समावेशन अथवा के.स.से. के ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी;
- (ii) यह तदर्थ नियुक्ति, किसी भी समय बिना कारण दिए रद्द की जा सकती है;
- (iii) वे अधिकारी जिन्होंने के.स.से. का स्तर 'घ' प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया है/प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, उन्हें छः माह के भीतर स्तर 'घ' प्रशिक्षण में प्रवेश लेना और सफलतापूर्वक पूर्ण करना अपेक्षित है;

- (iv) उपरोक्त अधिकारी की यह तदर्थ प्रोन्नति कैट (सीएटी), नई दिल्ली के समक्ष लंबित श्री पी. आर. शर्मा बनाम भारत संघ शीर्षक से ओ. ए. सं. 3294/2009 और श्री पी. एस. भण्डारी बनाम भारत संघ एवं अन्य शीर्षक से ओ.ए. सं. 2674/2009 में अंतिम परिणाम के अध्याधीन होगी।

एम. एल. वाधवानी, अवर सचिव

सं. ए-12012/4/2005-पी.II(.)--दिनांक 28.06.2010 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15 जून, 2011 के आदेश संख्या 5/3/2010-सीएस.आई(यू) द्वारा प्रेषित अनुमोदन सहित पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में के.स.से. के ग्रेड-I (अवर सचिव) के रूप में श्रीमती अर्चना श्रीवास्तव की तदर्थ नियुक्ति दिनांक 31.5.2012 तक अथवा नियमित पदधारी के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाई जाती है।

2. तदर्थ प्रोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :

- (i) यह तदर्थ प्रोन्नति, अनिश्चित रूप से ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में समावेशन अथवा के.स.से. के ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी;
- (ii) यह तदर्थ नियुक्ति, किसी भी समय बिना कारण दिए रद्द की जा सकती है;
- (iii) वे अधिकारी जिन्होंने के.स.से. का स्तर 'घ' प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया है/प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, उन्हें छः माह के भीतर स्तर 'घ' प्रशिक्षण में प्रवेश लेना और सफलतापूर्वक पूर्ण करना अपेक्षित है;
- (iv) उपरोक्त अधिकारी की यह तदर्थ प्रोन्नति कैट (सीएटी), नई दिल्ली के समक्ष लंबित श्री पी. आर. शर्मा बनाम भारत संघ शीर्षक से ओ. ए. सं. 3294/2009 और श्री पी. एस. भण्डारी बनाम भारत संघ एवं अन्य शीर्षक से ओ.ए. सं. 2674/2009 में अंतिम परिणाम के अध्याधीन होगी।

एम. एल. वाधवानी, अवर सचिव

दिनांक 13 जुलाई 2011

सं. ए-32012/1/2005-पी.II(.)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7-7-2011 के का.ज्ञा.सं. 6/9/2010-सी.एस. I (एस) के अनुसरण में, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों की पी बी-2, 9,300--34,000 रु. + 4,800/- रु. के (ग्रेड वेतन) के संशोधित वेतनमान में अनुभाग अधिकारियों के रूप में तदर्थ आधार नियुक्ति को 30.9.2011 तक अथवा नियमित आधार पर

अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया जाता है :--

क्र. सं.	नाम	क्र. सं.	नाम
1.	श्रीमती सुषमा सूद	9.	श्रीमती आशा महाजन
2.	श्रीमती सरोज वर्मा	10.	श्रीमती शोभा बालाकृष्णन
3.	श्री एस. सी. जैन	11.	श्री पास्कल एक्का
4.	श्री सतीश मोहन	12.	श्री ए. एन. आहूजा
5.	श्री प्रवीण कुमार झा	13.	श्रीमती अंजना कुमारी
6.	श्री यशवंत सिंह	14.	श्री राहुल देव दिवाकर
7.	श्रीमती सेलसा केरकेट्ट	15.	श्री पुनीत कुमार घोष
8.	श्री स्वपन बनर्जी	16.	श्री प्रेम कुमार मंडल

2. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग के श्री शिव कुमार, सहायक की पीबी-2, रु. 9,300--34,800/- + 4,800/-रुपये (ग्रेड वेतन) के संशोधित वेतनमान में अनुभाग अधिकारी के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्ति को 31.08.2011 तक अथवा नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाया गया है क्योंकि वह दिनांक 31.08.2011 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर रहे हैं।

3. तदर्थ आधार पर यह नियुक्ति, नियुक्त व्यक्ति को इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में समावेशन हेतु अथवा सीएसएस के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। तदर्थ आधार पर नियुक्ति, वरिष्ठता कोट अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित प्राधिकारी के उपलब्ध होने तक जारी रहेगी। तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्तियों द्वारा इन दो श्रेणियों में से किसी एक में नियमित नियुक्ति हेतु योग्य न होने की दशा में, इस मंत्रालय में उनके (नियमित अनुभाग अधिकारियों) के कार्य-ग्रहण करने की तारीख से ऐसे नियमित अधिकारियों की उपलब्धता पर उन्हें सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

एम. एल. वाधवानी, अवर सचिव

दिनांक 14 जुलाई 2011

सं. ए-32012/02/2005-पी.II(.)--राष्ट्रपति, के.स.आ.से. संवर्ग के निम्नलिखित निजी सचिवों, जिनके नामों के सम्मुख उनके मंत्रालय/विभाग उल्लिखित हैं, को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.11.2010 के का.ज्ञा. सं. 20/31/2010-सीएस. II और दिनांक 30.05.2011 के का.ज्ञा. सं. 3/1/2011-सीएस. II (ए) द्वारा तदर्थ आधार पर प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) के पद पर उनकी पदोन्नति और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में उनके नामांकन के परिणामस्वरूप दिनांक 30.09.2011 की अवधि तक अथवा नियमित आधार पर पदों को भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए उनके नामों के सम्मुख उल्लिखित तिथि से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में पूर्णतः तदर्थ आधार पर

15,600--39,100/- रु. + ग्रेड वेतन 6,600/- रु. के वेतनमान में के.स.आ.से. के प्रधान निजी सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम	संवर्ग, जहां से एमओईएफ में नामित हुए	कार्यग्रहण करने की तिथि
श्री/सुश्री			
1.	एन. कृष्णामूर्ति	मानव संसाधन विकास	01.07.2011 (पूर्वाह्न)
2.	हरीश कुमार लखेड़ा	सामाजिक न्याय और अधिकारिता	01.07.2011 (अपराह्न)

2. पीपीएस के ग्रेड में इन अधिकारियों की नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और उन्हें अनिश्चित रूप से इसे ग्रेड में बने रहने के लिए अथवा पीपीएस के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं होगा।

एम. एल. वाधवानी, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110108, दिनांक 19 जून 2011

सं. ए-12025/47/2007-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. श्रीप्रिया एस. को दिनांक 26.8.2010 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी के ग्रेड में रु. 15,600--39,100/- + 5,400/-रुपए (पी बी-3) के वेतनमान में अस्थायी क्षमता में नियुक्त करते हैं। डॉ. श्रीप्रिया एस. को सी. जी. एच. एस., दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। वे नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों के लिए परीक्षा पर रहेंगी।

अरूण चौधरी, अवर सचिव

नई दिल्ली-110108, दिनांक 18 जुलाई 2011

सं. ए-12025/13/2009-सीएचएस-VI--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. धीरेन्द्र कुमार को दिनांक 15 जनवरी, 2010 के पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक वेतन बैंड-3 में 15,600--39,100/- + 5,400/-रुपए दंत सर्जन के रूप में परीक्षा पर नियुक्त करते हैं और उन्हें केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कानपुर में दंत सर्जन के रूप में तैनात करते हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

दिनांक 19 जुलाई 2011

सं. ए-12025/28/08-सीएचएस-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. अजय कुमार को दिनांक 03.06.2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में बाल चिकित्सा की स्पेशियलिटी में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करती हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

दिनांक 22 जुलाई 2011

सं. ए-12025/10/2009-सीएचएस-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. नरेन्द्र सिंह झाझरिया को दिनांक 13.03.2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में हृदय-वक्ष एवं वाहिका शल्य चिकित्सा (सीटीवीएस) की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करती हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

सं. ए-12025/10/2009-सी एच एस-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. सुबोध कुमार सत्यार्थी को दिनांक 23.07.2010 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में हृदय-वक्ष एवं वाहिका शल्य चिकित्सा (सीटीवीएस) की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करती हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

सं. ए-12025/34/09-सीएचएस-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. प्रज्ञा शर्मा को दिनांक 09.02.2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के अध्यापन विशेषज्ञ उप-संवर्ग में अध्यापन विशेषज्ञ उप संवर्ग में रोधक एवं सामाजिक आयुर्विज्ञान (पी. एवं एसएम) की विशेषज्ञता में सहायक आचार्य के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करती हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110114, दिनांक 21 जुलाई 2011

सं. ए-32014/01/2010-स्थापना-II--राष्ट्रपति, श्री एम. वेंकटरमन, आशुलिपिक ग्रेड 'सी' (नियमित) को दिनांक 15.06.2011 (पूर्वाह्न) से पे बैंड-2 : 9,300--34,800/- रुपये + ग्रेड पे 4,800/- रुपये से ग्रामीण विकास मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (CSSS) संवर्ग में (आशुलिपिक ग्रेड 'ए' एवं 'बी' के विलय हो जाने पर) निजी सचिव (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के पद पर तदर्थ (Ad hoc) आधार पर या अगला आदेश आने तक, नियुक्त करती हैं।

जार्ज वाई., अवर सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 जुलाई 2011

सं. ए-19011/11/2011-स्था.--गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) के दिनांक 31.05.2011 के कार्यालय आदेश सं. 5/18/2010-राजभाषा (सेवा) के तहत शिव दर्शन कोरी की सहायक निदेशक (राजभाषा) के ग्रेड में पदोन्नति के अनुसरण में, इन्होंने दिनांक 07 जुलाई, 2011 (पूर्वाह्न) से

संस्कृति मंत्रालय में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

वनिता सूद, अवर सचिव

दिनांक 14 जुलाई 2011

सं. ए-19011/6/2008-स्थापना--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01 जुलाई, 2011 के कार्यालय आदेश संख्या 3/2/2911-सीएस-I (डी) के जरिए वर्ष 2011 के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) की वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) की चयन सूची में श्रीमती रूबीना अली का नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, संस्कृति मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) की उप सचिव, श्रीमती रूबीना अली को दिनांक 01 जुलाई, 2011 (पूर्वाह्न) से इसी मंत्रालय में निदेशक के पद पर नियुक्त करती हैं।

वनिता सूद, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून 2011

सं. ए-12034/02/2009-स्था.-II--राष्ट्रपति, श्री एस. टी. वेंकटचलपति, अवर सचिव, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग को माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री डी. नेपोलियन) के अपर निजी सचिव के रूप में 03.06.2011 के पूर्वाह्न से वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रुपए) में 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन के साथ राज्य मंत्री (सामाजिक न्याय और अधिकारिता) के कार्यकाल तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2011

सं. 19011/14/2008-स्था.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.07.2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3/2/2011-सीएस-1 (डी) द्वारा वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) में सीएसएस 2011 की चयन सूची में इनका नाम सम्मिलित होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, वर्तमान समय इस जनजातीय कार्य मंत्रालय में उप सचिव के रूप में कार्यरत श्री कोनथांग टैथांग को जनजातीय कार्य मंत्रालय में दिनांक 01.07.2011 के पूर्वाह्न से निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 2011

सं. ई (जी.पी.) 2011/1/05--राष्ट्रपति, भारतीय रेलवे के बिजली विभाग के निम्नलिखित ग्रुप-बी अधिकारी की उल्लिखित उत्पादन इकाई

पर 28.07.2000 से भारतीय रेल बिजली इंजीनियरिंग सेवा (आई. आर.एस.ई.ई.) के कनिष्ठ वेतनमान में नियुक्ति किये जाने का अनुमोदन करते हैं :--

श्री वी. गुरुस्वामी (आई.सी.एफ.)

वी. के. गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2011

सं. ए-12025/1/2011-ई-II (Vol. II)--राष्ट्रपति, श्री प्रवीण कुमार पेंदुर्थी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली, में दिनांक 11.07.2011 (पूर्वाह्न) से तथा आगामी आदेशों तक वेतनमान रु. 15,600--39,100/- + 5,400/- ग्रेड पे में केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा (सड़क) समूह 'क' के सहायक कार्यपालक अभियंता (सिविल) के पद पर नियुक्त करते हैं।

देवराज शर्मा, अवर सचिव

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 जुलाई 2011

सं. 8/3/07 प्रशा.-I--अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ आधार पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति, द्वारा निम्नलिखित सहायकों को 9,300--34,800/- रु. के पे बैंड में 4,800/- रु. ग्रेड वेतन के साथ केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी (तदर्थ) के पद पर उनके नाम के सामने अंकित तारीख से नियुक्त किया जाता है :--

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
	सर्वश्री	
1.	राजा राम	15.06.2010 (पूर्वाह्न)
2.	कुलदीप शर्मा	15.06.2010 (पूर्वाह्न)
3.	डी. के. मीना	13.10.2010 (पूर्वाह्न)
4.	सी. के. राजेन्द्रन	29.10.2010 (पूर्वाह्न)
5.	प्रेम सागर	21.07.2010 (पूर्वाह्न)
6.	जगदीश कुमार	10.08.2010 (पूर्वाह्न)

सुरेश कुमार, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 जुलाई 2011

सं. ए-11019/1/2011-प्रशा.-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मार्च 2011 के का.ज्ञा. के साथ पठित दिनांक 02 जून, 2011 के आदेश सं. 3/1/2011-सीएस-II (ए) के तहत शहरी विकास मंत्रालय के संवर्ग में तदर्थ आधार पर सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) के रूप में पुनःनामित किए जाने के फलस्वरूप, राष्ट्रपति, श्रीमती जोयस एलेक्स डिसूजा, श्रम और रोजगार मंत्रालय, महानिदेशक, फैंकट्री परामर्श और श्रम संस्थान के सीएसएसएस संवर्ग के नियमित स्टेनो ग्रेड 'ए' एवं 'बी' (विलय) (निजी सचिव) को दिनांक 04 जुलाई, 2011 के अपराह्न से दिनांक 30.09.2011 की अवधि तक अथवा नियमित आधार पर पद के भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर पे बैंड-3, वेतनमान 15,600--39,100/- रु. + 6,600/- रु. के ग्रेड पे में प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपरोक्त अधिकारी की पीपीएस के ग्रेड में नियुक्ति पूरी तरह से तदर्थ आधार पर है और इस नियुक्ति से उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा पीपीएस के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकारी नहीं मिलेगा।

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव

सं. ए-11019/1/2011-प्रशा.-I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 29 मार्च 2011 के का.ज्ञा. के साथ पठित दिनांक 02 जून, 2011 के आदेश सं. 3/1/2011-सीएस-II (ए) के तहत शहरी विकास मंत्रालय के संवर्ग में तदर्थ आधार पर सीएसएसएस के प्रधान निजी सचिव (पीपीएस) के रूप में पुनःनामित किए जाने के फलस्वरूप राष्ट्रपति, सुश्री ललिता रामचन्द्रन, श्रम और रोजगार मंत्रालय, महानिदेशक, फैंकट्री परामर्श और श्रम संस्थान के सीएसएसएस संवर्ग के नियमित स्टेनो ग्रेड 'ए' एवं 'बी' (विलय) (निजी सचिव) को दिनांक 27 जून, 2011 के अपराह्न से दिनांक 30.09.2011 की अवधि तक अथवा नियमित आधार पर पद के भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर पे बैंड-3, वेतनमान 15,600--39,100/- रु. + 6,600/- रु. के ग्रेड पे में प्रधान निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपरोक्त अधिकारी की पीपीएस के ग्रेड में नियुक्ति पूरी तरह से तदर्थ आधार पर है और इस नियुक्ति से उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा पीपीएस के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकारी नहीं मिलेगा।

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई 2011

सं. ए-31014/01/2011-आईएसएच-II--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के आगे दिए गए पदों पर, प्रत्येक अधिकारी

के नाम के समक्ष दी गई तारीख से खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद के कार्यालय में, नियुक्त करती हैं :--

क्रम अधिकारी का नाम सं.	पद का नाम	नियुक्ति की मूल तारीख
सर्वश्री		
1. सुप्रिय चक्रवर्ती	खान सुरक्षा उप-निदेशक (खनन)	07.05.2010
2. एस. चन्द्रमौली	-वही-	12.02.2010
3. टी. आर. कानन	-वही-	02.03.2010
4. नीरज कुमार	-वही-	04.05.2010
5. मुरलीधर बिदरी	-वही-	26.02.2010
6. सैफुल्ला अंसारी	-वही-	06.03.2010

क्रम अधिकारी का नाम सं.	पद का नाम	नियुक्ति की मूल तारीख
7. विनोदानन्द कालुंडिया	खान सुरक्षा उप-निदेशक (खनन)	27.02.2010
8. मनीष चन्द्र जैसवाल	-वही-	27.02.2010
9. मुरलीधर मिश्र	-वही-	31.03.2010
10. अजय सिंह	खान सुरक्षा उप-निदेशक (विद्युत)	26.02.2010
11. थामीसेटी श्रीनिवास	-वही-	30.03.2010
12. परमानन्द कुमार सिंह	खान सुरक्षा उप-निदेशक (यांत्रिक)	30.12.2009

वन्दना शर्मा, निदेशक

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110101, the 19th July 2011

No. A-22019/1/2010-PME—Notification of even number dated 13.06.2011 of this office, extending the term of members of National Advisory Council upto 31.05.2012, stands modified to the extent that the name of Dr. Jean Dreze, GB Pant Social Science Institute, Allahabad, indicated at Sr. No. 5 is deleted and Sr. No. 4 be read as "Prof. Pramod Tandon, North Eastern Hill University, Shillong" instead of "Prof. Pramod Tandon, VC, North-Eastern Hill University, Shillong".

P. K. BALI, Under Secy.

The 21st July 2011

No. A-22012/1/2011-PME—The President is pleased to appoint Shri Sanjay Lohiya, IAS (AM : 1994) as Director in the Prime Minister's Office w.e.f. the forenoon of 20th July, 2011 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

P. K. BALI, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 21st April 2011

No. RS/3/7/1/2011/34-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint the following persons in the grade of Joint Director (E&T) in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Director (E&T) on regular basis in that Secretariat in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay of Rs. 8,700/- plus usual allowances admissible under the rules with effect from the forenoon of 20th April, 2011 and until further orders :—

1. Shri Chandra Shekhar Mishra
2. Shri Birendra Kumar

S. RANGARAJAN, Dy. Director

No. RS/3/7/1/2011/35-Perl.—Smt. Punam Sahni, who was earlier appointed to officiate as Deputy Director (E&T) in the Rajya Sabha Secretariat on in situ basis vide Notification No. RS/3/7/1/2011/17-Perl. dated 24th February, 2011 stands adjusted against a regular vacancy in the said grade with effect from the forenoon of 20th April, 2011.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

No. RS/3/7/1/2011/36-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Dinesh Chandra Sharma, Assistant Director (E&T) in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Deputy Director (E&T) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade

Pay of Rs. 7,600/- plus usual allowances admissible under the rules on regular basis in that Secretariat with effect from the forenoon of 20th April, 2011 and until further orders.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

The 19th July 2011

No. RS/6/4/2011/55-Perl.—The services of Shri Prabhu, who had been appointed as Senior Private Secretary on co-terminus basis in the personal staff of Chairman, Committee on Industry (Shri Tiruchi Siva), stand terminated w.e.f. the afternoon of 9th May, 2011.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

No. RS/6/4/2011/56-Perl.—Shri B. Rajkanth has been appointed as Senior Private Secretary in the Rajya Sabha Secretariat in the personal staff of Chairman, Committee on Industry (Shri Tiruchi Siva) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the forenoon of 10th May, 2011 and until further orders.

2. The appointment of Shri B. Rajkanth is at the discretion of the present Chairman, Committee on Industry and will be co-terminus with the term of his office.

S. RANGARAJAN, Dy. Director

New Delhi-110001, the 15th July 2011

No. RS/3/1(3)/2011/54-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri P. P. K. Ramacharyulu, Director in the Rajya Sabha Secretariat to officiate in the grade of Joint Secretary in the Pay Band-4 of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 10,000/- plus usual allowances as admissible under the rules, on ad-hoc basis in that Secretariat, with effect from the forenoon of 15th July, 2011 and until further orders.

SUNDIP MESRA, Asstt. Director

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 30th March 2011

No. F.6(2148)/2010-Admn.I—In continuation of Planning Commission's Notification of even number dated 20.12.2010 and in pursuance of Ministry of Statistics & Programme Implementation Office Order No. 12016/3/JAG/2010-ISS dated 17.3.2011, Ms. Vandana Marwah, Ad-hoc Deputy Adviser stands promoted on regular basis as Deputy Adviser in Planning Commission w.e.f. 17.3.2011 until further orders.

G. RAJEEV, Under Secy.

The 4th April 2011

No. F.6(2157)/2011-Admn.I—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. T-7/2011 dated 28.3.2011 issued from their file No. 13016/3/2011-IES, Ms. Mamta Shankar, NFSG officer of IES has assumed charge as Director in Planning Commission in Pay Band-4 i.e. Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,700/- w.e.f. 01.04.2011 (FN).

G. RAJEEV, Under Secy.

The 5th April 2011

CORRIGENDUM

No. F.6(2148)/2010-Admn.I—Reference Planning Commission's Notification of even number dated 30.3.2011 regarding promotion of Ms. Vandana Marwah, Deputy Adviser, Planning Commission on regular basis. The date of regular promotion may be read as 7.3.2011 instead of 17.3.2011.

G. RAJEEV, Under Secy.

The 28th April 2011

No. A-43011/07/2010-Admn.I—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 7/1/2011-EO (MM-I) dated 21.2.2011, Shri Partha Sarathi Reddy Chevuru, IRSEE (1998) has assumed charge of the post of Deputy Secretary in the Planning Commission, on central deputation basis, for a tenure of four years w.e.f. 28.04.2011 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

G. RAJEEV, Under Secy.

The 6th July 2011

No. F.6(2161)/2010-Admn.I—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. T-19/2011 dated 01.07.2011 issued from their file No. 13016/3/2011-IES, Shri Kumar V. Pratap, NFSG officer of IES has assumed charge as Director in Planning Commission in Pay Band-4 i.e. Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,700/- w.e.f. 01.07.2011 (FN).

G. RAJEEV, Under Secy.

The 11th July 2011

No. F.6(2162)/2011-Admn.I—In pursuance of Department of Personnel & Training's Communication No. 7/1/2011-E.O. (SM-I), dated 4th July, 2011 and consequent upon his assuming the charge of the post of Adviser (Health) in Planning Commission, the President is pleased to appoint Dr. Rakesh Sarwal, IAS (MT : 88) as Adviser (Health) in Planning Commission w.e.f. the afternoon of 7th July, 2011 for a tenure upto 31.05.2014 or until further orders, whichever event takes place earlier.

G. RAJEEV, Under Secy.

New Delhi, the 30th June 2011

No. A-20012/408/82-Admn.V/IV—On attaining the age of superannuation, Smt. Pramila Mathur, a regular Assistant and officiating as Section Officer on ad-hoc basis, will retire from Government Service with effect from the afternoon of 30th June, 2011.

P. C. BHARDWAJ, Under Secy.

The 12th July 2011

No. A-32013/03/2011-Admn.III—Consequent upon inclusion of her name in the Select List of Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS for the Select List Year 2009 under the Zoning Scheme for Seniority Quota (SQ) and her nomination to the Planning Commission vide Department of Personnel and Training's O.M. No. 5/27/2010-CS.II (A), dated the 10th June, 2011 and after being relieved of her duties from Directorate General of Health Services, Ministry of Health & Family Welfare, President is pleased to appoint Smt. Madhu Mehta, a regular Steno Grade 'C' of CSSS as Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS in Planning Commission on regular basis in the Pay Band PB-2, Rs. 9,300—34,800/- with correspondence Grade Pay of Rs. 4,800/- w.e.f. 01.07.2011 (AN).

P. C. BHARDWAJ, Under Secy.

The 14th July 2011

No. A-32014/02/2007-Admn.III—Consequent upon his promotion to the post to Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS (PS) on ad-hoc basis in the Pay Band of PB-2, Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- and nomination to the Cadre of Planning Commission vide Department of Personnel and Training's O. M. No. 5/21/2010-CS.II, dated 31st December, 2010, President is pleased to appoint Shri C. P. Devarajan, a regular Steno Grade 'C' of the Department of Posts, Ministry of Communications & Information Technology as Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS (PS) on ad-hoc basis in Planning Commission w.e.f. 30.06.2011 (AN) for a period upto 31.12.2011 or till the regular Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS (PS) will become available or post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment of Shri C. P. Devarajan to the post of Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS (PS) is purely on ad-hoc basis and shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS for regular appointment or to claim seniority in Steno Grade 'A&B' (Merged) of CSSS (PS).

P. C. BHARDWAJ, Under Secy.

The 15th July 2011

No. A-32013/02/2011-Adm.-III—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 3/1/2011-

CS-II(A)(Pt.), dated the 30th May, 2011 and 2nd June, 2011 and after being relieved of their duties from their respective Cadre Units, the President is pleased to appoint the following regular Private Secretary of CSSS of the Cadre Units mentioned against each as Principal Private Secretary of CSSS in Planning Commission in the Scale of (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/-) on ad hoc basis with effect from the dates mentioned against each for the period upto 30.09.2011 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name of the Officers	Cate-gory	SLY in PS Grade	Cadre where working as regular Private Secretary	Date of joining as PPS on ad hoc basis in Planning Commission
	(Shri/Smt./Kum.)				
1.	Sangeeta Jain	Gen.	1998	Telecom	06.07.2011 (AN)
2.	Sharada Kapoor	Gen.	1995	Posts	08.07.2011 (AN)
3.	Latha Venkatesan	Gen.	1999	I & B	13.07.2011 (FN)

2. The appointment of these officers to the grade of PPS is purely on ad hoc basis and shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS.

P. C. BHARDWAJ, Under Secy.

MINISTRY OF LAW & JUSTICE
(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 14th July 2011

No. A-32013/4/2006-Admn.-IV (LA) Vol.-II—The President is pleased to appoint following regular Private Secretaries of respective cadres as Principal Private Secretary on ad hoc basis in the Pay Band PB-3 Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in this department w.e.f. dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name & Designation	Cadre where presently working	Date of Joining this Department
1.	Shri Anoop Seth	Agriculture & Cooperation	05.07.2011
2.	Shri T. C. Scaria	Labour & Employment (DGFASLI, Mumbai)	04.07.2011

2. In terms of Department of Personnel & Training Order No. 3/1/2011-CS-II(A) dated 30.05.2011 & 02.06.2011, the above said appointment is purely on ad hoc basis for the period up to 30.09.2011 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier and will

not confer any right on them to continue in the grade indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS.

ASHA SOTA, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 19th July 2011

No. A-20/G/3002-Ad.-I—The President is pleased to appoint Smt. Suchitra Goswami, Director, Central Secretarial Service (CSS), as Joint Secretary (in situ) in Senior Administrative Grade with effect from the forenoon of 15th July, 2011, till she is placed under Central Staffing Scheme.

J. B. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 14th July 2011

CORRIGENDUM

No. 14015/22/2008-AIS(I)—In partial modification of the Order No. 14015/22/2008-AIS(I)-B dated 25th May, 2011, issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (Department of Personnel & Training), in the last para of this order the name of Shri Ram Mohan Yadav may be substituted by Shri Dileep Kumar Gupta.

S. S. SHUKLA, Under Secy.

New Delhi, the 15th July 2011

No. 14013/08/2011-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, the following members of the Indian Administrative Service borne on the Madhya Pradesh Cadre, in the Indian Administrative Service, with effect from the date(s) shown against them :—

Sl. No.	Name of the officer	Batch	Date of confirmation
	(S/Shri/Smt.)		
1.	Sunita Tripathi	2000	04.09.2009
2.	Renu Tiwari	2000	04.09.2009
3.	Shyam Singh Kumre	2000	04.09.2009
4.	Mathuresh Babu Ojha	2001	04.09.2009

NAVNEET MISHRA, Under Secy.

No. 14012/21/2011-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, the following members of the Indian Administrative Service borne on the State Cadre of Himachal Pradesh, in the Indian

Administrative Service, with effect from the date(s) shown against him :—

Name of the officer	Batch	Date of confirmation
Shri Shainamol A.	2007	18.08.2009

NAVNEET MISHRA, Under Secy.

No. 14012/06/2010-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, the following members of the Indian Administrative Service borne on the Gujarat Cadre, in the Indian Administrative Service, with effect from the date(s) shown against them :—

Sl. No.	Name of the officer	Batch	Date of confirmation
	(S/Shri)		
1.	Ajay Kumar	2006	29.08.2008
2.	Jenu Devan	2006	11.12.2008
3.	Vipra Bhal (Ms.)	2006	29.08.2008

NAVNEET MISHRA, Under Secy.

No. 14013/04/2011-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Late F. V. Vasave a Member of the Indian Administrative Service borne on the Maharashtra Cadre of 2000 Batch, in the Indian Administrative Service, with effect from 23.02.2010.

NAVNEET MISHRA, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
OFFICE OF DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 13th July 2011

No. D-III/460/CF-02/2011—The President of India is pleased to recognize the appointment of Dr. Keshavareddy Sudhakar as Honorary Consul of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka in Bengaluru with immediate effect.

The consular jurisdiction of Dr. Keshavareddy Sudhakar comprises the State of Karnataka with the seat in Bengaluru.

S. INBASEKAR, Dy. Chief of Protocol (F)

The 18th July 2011

No. D-III/460/CF-12/2011—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Mohamed Hatimi Bin Abas as Consul General of Malaysia in Mumbai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Mohamed Hatimi Bin Abas comprises the State of Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh and Goa with the seat in Mumbai.

S. INBASEKAR, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 8th July 2011

No. 57 (F.No. A-19012/10/2011-Ad.-I)—The President is pleased to appoint Shri Suresh Kumar, IRS (C&CE:93) as Director in the Department of Revenue for a period of five years with effect from 06.07.2011 (FN) or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 58 (F.No. A-19011/12/2011-Ad.-I)—The President is pleased to appoint Shri Satyendra Singh Rana, IRS (IT:75014) as Member of the Central Board of Direct Taxes (CBDT) in the Department of Revenue, Ministry of Finance in the Pay Scale of Rs. 80,000/- (fixed) with the status of Special Secretary to the Govt. of India with effect from 08.07.2011 (AN) and until further orders or his superannuation, whichever is earlier.

2. The appointment of Shri Satyendra Singh Rana, IRS (IT:75014), as Member, CBDT is subject to the final outcome of the following Original Applications :—

- (i) O.A. No. 40/2008 filed by Ms. J.D. Sahay, Chief Commissioner (Retd.) before the Hon'ble Central Administrative Tribunal (CAT), Ahmedabad Bench (now transferred to the Principal Bench, New Delhi).
- (ii) O.A. No. 3823/2010 filed by Shri Laxman Das, CCIT before the CAT, Principal Bench, New Delhi.
- (iii) O.A. No. 4043/2010 filed by Shri R. Bhardwaj, CCIT before the CAT, Principal Bench, New Delhi.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 13th July 2011

No. 31/2011 (F. No. A.19013/26/2011-Ad.IA)—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O. M. No. 3/1/2011-CS.II(A)(Pt.) dated 30.5.2011 and Department of Expenditure's O.M. No. A.32014/4/2010-CAS dated 12th July, 2011, the President is pleased to appoint Shri Chander Parkash Sharma, a regular Private Secretary (PS) of CSSS of Union Public Service Commission as Principal Private Secretary (PPS) of CSSS in the Department of Revenue, Ministry of Finance in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-+Grade Pay of Rs. 6,600/-) on ad-hoc basis w.e.f.

04.07.2011 (F/N) for the period upto 30.9.2011 or till the post is filled up on regular basis or till further orders, whichever is earlier.

2. Promotion of Shri Chander Parkash Sharma to the post of Principal Private Secretary is purely on ad-hoc basis and shall not confer on him any right to continue in the post indefinitely or to claim seniority in the grade of PPS.

RENUKA NAMBIAR, Under Secy.

No. 32/2011 (F. No. A.19013/25/2011-Ad.IA)—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O. M. No. 3/1/2011-CS.II(A)(Pt.) dated 29.3.2011 and Department of Expenditure, (CAS) O.M. No. A.32014/4/2010-CAS dated 8th July, 2011, the President is pleased to appoint Smt. Premlata Nagar, a regular Private Secretary (PS) of CSSS of Department of Higher Education as Principal Private Secretary (PPS) of CSSS in the Department of Revenue, Ministry of Finance in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/-) on ad-hoc basis w.e.f. 1.7.2011 (F/N) for the period upto 30.9.2011 or till the post is filled up on regular basis or till further orders, whichever is earlier.

2. Promotion of Smt. Premlata Nagar to the post of Principal Private Secretary is purely on ad-hoc basis and shall not confer on her any right to continue in the post indefinitely or to claim seniority in that post.

RENUKA NAMBIAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 15th July 2011

No. A-22012/2/2008-Admn.II—In pursuance of O.M. No. 32015/4/2010-CAS dated 11.07.2011 of Department of Expenditure (CAS), the President is pleased to continue the ad-hoc appointment of the following Section Officers upto 30.09.2011, or till the regular Section Officers are made available, whichever is earlier, in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs:—

S. No.	Name of Officers	S. No.	Name of Officers
1	2	1	2
1.	(Shri/Smt.) Ashok Kumar	7.	(Shri/Smt.) Neelam Sibal
2.	B. N. Saini	8.	Neera Budhiraja
3.	Bhaskar Chakraborty	9.	Ramesh Prasad
4.	D. K. Kalra (Smt.)	10.	Rita Sachdeva
5.	Kishan Lal Meena	11.	Sadhna Sharma
6.	Manoj Manu	12.	Sanjay Kumar Jha

1	2	1	2
13.	(Shri/Smt.) Sarita Gulati	20.	(Shri/Smt.) Santosh Kumar
14.	Y. Y. Parate	21.	S. Subramaniam
15.	Swaran Rudra	22.	Hriday Nand Sah
16.	Sikha Das (Smt.)	23.	Neelam Gandhi
17.	Satinder Jit Kaur	24.	Pratibha Sharma (
18.	Sunil Kumar Mandi	25.	D. K. Asija
19.	E. Kujur	26.	Justine Xalxo

2. The ad-hoc appointments of the above Assistants as Section Officer will be subject to the following terms and conditions:—

- Ad-hoc appointments, being a stop-gap arrangement, shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade.
- Ad-hoc arrangements will continue till regular candidates in the Section Officer grade are available either through Seniority Quota/Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) or until further orders. In the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistant Grade on availability of such regular Officers, from the date they (regular Section Officer) join duty in their respective cadre allotted to them by DoPT.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

The 20th July 2011

No. A.19011/7/2011-Admn.II—The President is pleased to appoint Shri Venu Rajamony, (IFS:86) as Joint Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance with effect from the forenoon of 15th June, 2011 for a period of three years or until further orders, whichever event takes place earlier.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 15th July 2011

No. 8/9/2009-DRT—On attaining the age of 65 years, Justice Jatinder Mohan Malik, Chairperson, Debts Recovery Appellate Tribunal, Delhi, will demit the charge of

Chairperson of the Appellate Tribunal with effect from 17th July, 2011 (A.N.).

RAJIV SHARMA, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 12th July 2011

No. A.32014/2/2011-Ad.I—The President is pleased to appoint the following regular Stenographer Grade 'C' of Central Secretariat Stenographers' Service to the post of Steno Grade 'A&B' (merged) (designated as Private Secretary) in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the pay band-2 of Rs. 9,300—34,800/-+4,800/- (Grade Pay) purely on ad-hoc basis on their promotion with effect from the date mentioned against their name for a period up to 31.12.2011 or till the regular Steno Gr.'A&B' (Merged) of CSSS (PS) become available, whichever is earlier :—

S. No.	Name of the official	Date of appointment
1.	Shri Saugat Dey	30.6.2011
2.	Shri P. Shyam Prasad	01.7.2011

2. The ad-hoc appointment of the above named officials shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Steno Gr. 'A&B' (Merged) of CSSS (PS).

MEETALI GHOSH, Under Secy.

The 19th July 2011

No. A-12026/4/2008-Admn.I—The President is pleased to extend the appointment of the following permanent Assistants of CSS Cadre of Ministry of Finance, Department of Expenditure to the post of Section Officer on purely ad-hoc basis upto 30th September, 2011 or till regular incumbents become available, whichever is earlier:—

1. Shri D. C. Kaim
2. Shri Sharad N. Hulale
3. Smt. Usha Gill
4. Shri Narendra Prakash
5. Shri Praveen Chander Sharma
6. Smt. Vijay Kharat
7. Shri Sunil Kumar
8. Shri T. Beck
9. Shri K. J. Bhatt
10. Smt Sangita Toppo
11. Shri Pramod Kumar Verma

2. The ad-hoc promotion of the above officials will not bestow on them any claim for regular appointment and services rendered by them on short-term basis in the grade will not be counted for promotion in the next higher grade.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

The 20th July 2011

No. A-32014/2/2011-Ad.I—The President is pleased to extend the appointment of the following Personal Assistants of CSSS cadre of the Ministry of Finance, Department of Expenditure to the post of Private Secretary, purely on ad-hoc basis for the period mentioned against their names or till regular PS of CSSS become available, whichever is earlier:—

S. No.	Name	Period of Promotion
1.	Smt. M. Jayalakshmi	upto 31.12.2011
2.	Smt. Kusum Sharma	-do-
3.	Shri G.V.S.S.L. Narasimham	-do-
4.	Shri Lallan Manjhi	-do-
5.	Shri Narendra Kumar	-do-
6.	Shri Vinod Chander Oberoi	-do-
7.	Shri Jagtar Singh	-do-
8.	Smt. Renu Singh	-do-
9.	Shri Dhiraj Kumar	-do-
10.	Smt. Sripada Swarnalatha	-do-
11.	Smt. Iti Mishra	-do-
12.	Smt. Shashi Mongia	-do-
13.	Smt. Nirmal Sharma	-do-
14.	Smt. Neelam Prabha Sarna	-do-
15.	Smt. Reeta Tandon	-do-
16.	Smt. Rajni Sethi	-do-
17.	Shri Rajender Singh	-do-
18.	Smt. Shashi Bala	-do-
19.	Smt. Suman	-do-
20.	Smt. Sarada Sivakumar	-do-
21.	Smt. Rekha Madhok	-do-
22.	Smt. Sushma Gupta	-do-
23.	Smt. Renuka	-do-
24.	Shri Arvind Bhardwaj	-do-
25.	Smt. Shanta Sharma	-do-

2. The ad-hoc appointment of the above named officials shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade "A&B" (merged) of CSSS. The ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without assigning any reason.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

The 22nd July 2011

No. A-12023/3/2004-Ad-II(Vol.II)—Consequent upon his transfer from the Ministry of Statistics and Programme implementation vide Order No. 12016/2/2011-SSS dated 19th May, 2011, the President is pleased to appoint Shri Vinay Kumar, Statistical Investigator Grade-I (ad-hoc) of the Subordinate Statistical Service as Senior Investigator in the Department of Expenditure, Ministry of Finance w.e.f. 1.7.2011 (FN) in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/-.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi-110 001, the 20th July 2011

No. A-32011/03/2011-Adm.I—In terms of Department of Personnel and Training's Office Memorandum No. 4/2/2011-CS.II(A) dated 31.03.2011 and this Ministry's Office Order of even number dated 08.07.2011, the President is pleased to appoint the following regular Personal Assistant of Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) to the post of Private Secretary of CSSS on ad-hoc basis in the Ministry of Corporate Affairs with effect from the forenoon of 08.07.2011.

1. Shri S. C. Puri
2. Smt. Durgesh Nandini
3. Smt. Namita Bakshi
4. Shri Sanjeev Kumar Anand

J. S. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY
AND PROMOTION)

New Delhi-110107, the 13th July 2011

No. A-45011/2/2011-E.I—In pursuance of the orders of the Department of Personnel and Training vide their OM No. 5/8/2006-CS.II dated 1.7.2011, the President is pleased to extend the ad hoc appointment of the following regular Grade 'C' Stenographers of the Central Secretariat Stenographers Service Cadre as ad hoc Stenographer Grade 'A&B' (merged) (Private Secretary) of CSSS in the cadre of the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry in the scale of Pay Band-2,

Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- on purely ad-hoc basis, for the period upto 31.12.2011 (except in the case of Sl. No. 15), or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name	Posting	Remarks
1	2	3	4
Shri/Smt./Kum.			
1.	Anup Kumar Mahajan	O/o EA	
2.	Sunita	DIPP	
3.	P. C. Sharma	DHI	
4.	Sanjay Narang	DIPP	
5.	M. S. Viswanathan	M/o FPI	
6.	Sunil Kumar	DHI	
7.	Surinder Jeet Kaur Anand	DPE	
8.	K. E. Mohanan	DIPP	
9.	Prem Lata Chugh	DHI	
10.	Sunita Thakur	DIPP	
11.	Meena Jolly	M/o FPI	
12.	Ajay Sareen	DPE	
13.	Sukhbir Singh Negi	DIPP	
14.	Savita Yadav	DIPP	
15.	Vijay Kumar Chadha	DIPP	Upto 30.11.2011 i.e. the date of superannuation
16.	Harvinder Kaur Ahluwalia	DIPP	
17.	Trilochan Singh	DIPP	
18.	Sudesh Khurana	DHI	
19.	Pawan Kumar	DIPP	
20.	Suman Sood	DHI	
21.	Bharat Mohan	DIPP	
22.	Mahabir Singh Rawat	TC	
23.	Sampat Singh	TC	
24.	Anil Kumar	DIPP	
25.	Pawan Airy	DHI	
26.	Sumitra Das	DIPP	
27.	Jitendra Kumar	DHI	

1	2	3	4
28.	L. K. Suryawanshi	DIPP	
29.	Tripta Mitra	DHI	
30.	Ravi Kant Jain	M/o FPI	
31.	Sanjeev Kumar Kaplish	M/o FPI	
32.	Krishan Kumar Sachdeva	DIPP	
33.	Dinesh Kumar	DIPP	
34.	J. Bhuvaneshwari	DIPP	
35.	Tara Singh Aswal	M/o FPI	
36.	Anita Kalra	DPE	
37.	Seema Ahuja	DPE	
38.	Shashi Chadha	DHI	
39.	Randhir Singh	DPE	
40.	Suchita Banga	TC	
41.	Manju S. Chadha	DIPP	

2. The above appointment has been made purely on ad hoc basis and do not confer any right on the officers concerned to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Private Secretary for regular appointment or to claim seniority etc. in the PS grade of CSSS. The Government reserves the right to terminate the ad hoc appointment without assigning any reason or giving notice etc. to the officer concerned.

L. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICAL & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 13th July 2011

No. A-19011/5/76-HR.II—The competent authority is pleased to include Shri S. L. Bajaj (Retired) to the Selection Grade (Deputy Secretary) of the Central Secretariat Service, Select List Year 1995, in pursuance of Department of Personnel & Training Office Order No. 4/3/2010-CS.I(D) dated 15th March, 2011.

2. Shri S. L. Bajaj (retired) CSL No. 2312 (DSSL 1995), Sl. No. 54(A) has been placed below Shri V. K. Dhingra, CSL No. 2309, Sl. No. 54 and above Shri M. Venkatraman, SCL No. 2318, Sl. No. 55.

3. Shri S. L. Bajaj, superannuated on 30.11.2002 is entitled for payments/arrears admissible to him from the date of promotion granted to his juniors, viz. Shri M. Venkatraman, Shri B. K. Arora, Shri M. S. Mathur etc. Consequential benefits if any, shall also be granted to him, if due and admissible, upto the date of his superannuation and his

pensionary benefits also recalculated accordingly as per extant rules.

SOWMENDRA CHANDA, Under Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 13th July 2011

No. 12/3/2009-ASO—In continuation of this Ministry's Notification No. 12/3/2009-ASO dated 5th January, 2010, and Notification of even number dated 5th August, 2010, the President is pleased to extend the tenure of Shri Rajneesh Kumar Mahajan, IAS (BH:87) as Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Coal for the period upto 23.09.2011 or until further orders, whichever is earlier.

SHARAD GHODKE, Dir.

The 21st July 2011

No. 12/6/2011-ASO—The President is pleased to appoint Shri Dharmendra Prakash, IFS (NL:1989) as Officer on Special Duty to Minister of Coal (Shri Sriprakash Jaiswal) at the level of Director with effect from 18th July, 2011 (AN) i.e. the date of assumption of charge of hte post and upto the balance period of his admissible period tenure upto 15.06.2014, or on co-terminous basis with the Minister or till he ceases to function as OSD to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

SHARAD GHODKE, Dir.

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES & PUBLIC ENTERPRISES

(DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES)

New Delhi-110003, the 19th July 2011

No. A-12023/1/2011-Admn.—The President is pleased to appoint Ms. Swarnamala Rawla, IAS (MP:80) as Secretary, Board for Reconstruction of Public Sector Enterprises (BRPSE), Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, in the rank and pay of Additional Secretary, w.e.f. afternoon of 06.07.2011 and until further orders.

A. K. SINHA, Jt. Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 25th July 2011

No. A-12011/8/2008-Estt.—In pursuance of Department of Official Language's Office Order No. 5/18/2010-OL(S) dated 31st May, 2011 and Ministry of Home Affairs's Office Order No. 20/B/1677-Ad.II dated 22nd July, 2011, the President is pleased to appoint Shri Om Prakash, Senior Hindi Translator in the Ministry of Home Affairs as

Assistant Director (OL) on purely ad hoc basis in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) plus Grade Pay of Rs. 5,400/- in the Department of Consumer Affairs w.e.f. the forenoon of 22nd July, 2011 for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion of Shri Om Prakash shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade.

OM PRAKASH, Dy. Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 1st July 2011

No. A-19013/01/11-Admn.I(A)—The President is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar, Scientist 'C', Department of Scientific and Industrial Research as Scientist 'D' in the Department of Science and Technology in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) plus Grade Pay Rs. 7,600/- on deputation basis with effect from 23.06.2011 (AN) for a period of one year or until Dr. M. Prithviraj is repatriated from deputation or until further orders, whichever is earlier. His appointment will be governed in accordance with the instructions contained in the Department of Personnel & Training's OM No. 2/29/91-Estt. (Pay II) dated 05.01.1994 as amended from time to time.

LATHA GOPAKUMAR, Under Secy.

COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

New Delhi-110001, the 22nd July 2011

Sub.: Appointment of Vice-President, CSIR

No. 1/2(1)/2011-PD—In pursuance of the proviso to Rule 3(b) of the Rules & Regulations of CSIR, Shri Vilasrao Deshmukh, Minister of Science & Technology shall be the ex-officio Vice-President, CSIR.

Shri Deshmukh assumed the charge of his office with effect from 12th July, 2011.

K. JAYAKUMAR, Jt. Secy. (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL SCIENTIFIC ADVISER TO THE GOVERNMENT OF INDIA

New Delhi-110011, the 18th July 2011

No. Prn.SA/01(02)2007-Admn.—The President is pleased to appoint Ms. R. Bagavathi, Stenographer Grade 'C' of CSSS in the cadre of Ministry of Health and Family Welfare and working as First Personal Assistant in the Office of the Principal Scientific Adviser to the Government of India, to the post of Assistant Private Secretary in the same Office on deputation basis in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) with Grade Pay of Rs. 4,800/-, with effect from the forenoon of 18th July, 2011.

2. The above appointment is at the pleasure of and co-terminus with the tenure of Dr. R. Chidambaram as the Principal Scientific Adviser to the Government of India.

M. K. HARIKUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110510, the 27th January 2010

No. 17013/08/2010-IFS-II—In exercise of provisions contained in Sub-Regulation 3 of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the Union Public Service Commission has approved the Select List for promotion from State Forest Service of Manipur to the Indian Forest Service for the year 2009 containing the names of the following officers of the State Forest Service of Manipur towards filling up of promotion quota vacancies available in Manipur Cadre of the Indian Forest Service :—

Sl.No.	Name of the Officer	Date of Birth
1.	Shri W. Yaiskul Singh	01.01.1961
2.	Shri A. Bonbirdhwaja Singh	01.03.1957
3.	Shri L. Lukhoi Singh (SC)	10.03.1962
4.	Shri L. Joykumar Singh	01.02.1967
5.	Shri K. S. Tawmbing (ST)	17.01.1969

S. S. BADHAWAN, Dir. (IFS)

The 10th June 2011

No. 17013/03/2010-IFS-II—In exercise of the powers conferred by Sub-Rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint with immediate effect, the following six officers of the State Forest Service of Tripura to the Indian Forest Service on the basis of Select List for the year 2009 and allocate them to (Tripura segment) of Manipur-Tripura Joint Cadre of Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 :—

Sl.No.	Name of the Officer	Date of Birth
1.	Shri Budhi Debbarma (ST)	11.01.1963
2.	Shri Nirode Baran Debnath	16.01.1962
3.	Shri Chandan Kr. Das (SC)	01.03.1960
4.	Shri Sushil Debbarma (ST)	13.02.1962
5.	Shri Urdhab Tripura (ST)	02.01.1964
6.	Shri Rajat Kanti Das (SC)	09.09.1955

S. S. BADHAWAN, Dir. (IFS)

The 15th June 2011

No. 17013/10/2010-IFS-II—In exercise of the powers conferred by Sub-Rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1966, the President is pleased to appoint with immediate effect, the following three officers of the State Forest Service of Gujarat to the Indian Forest Service on the basis of Select List for the year 2009 and allocate them to Gujarat Cadre of Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966 :—

Sl.No.	Name of the Officer	Date of Birth
1.	Shri B. H. Patel	29.05.1959
2.	Shri D. T. Vasavada	08.02.1962
3.	Shri I. K. Chhabra	20.09.1957

S. S. BADHAWAN, Dir.

New Delhi-110003, the 11th July 2011

No. 23012/01/2011-IFS-II—Shri Jitender, an IFS Probationer of 2010-2012 batch is permitted to change his name from Jitender to Jitender Ahlawat and henceforth be known as Jitender Ahlawat for all official purposes.

JOSEPH LUIKHAM, Under Secy.

New Delhi-110013, the 17th June 2011

No. A-12012/4/2005-P.II.—In continuation of Notification of even number dated 18.11.2010 and with the approval of the Department of Personnel & Training conveyed vide thier order No. 5/3/2010-CS.I(U) dated 15th June, 2011, the ad hoc appointment of Shri Jai Prakash Meena as Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Ministry of Environment & Forests is hereby extended upto 31.5.2012 or until the regular incumbent becomes available, whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion is subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of the CSS;
- (ii) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor;
- (iii) The Officers, who has not Completed/undergone level 'D' Training of the CSS, shall require to undergo and successfully complete the leve 'D' Training within a period of six months;
- (iv) The ad hoc promotion of Officer shall be subject to the final outcome in the OA No. 3294/2009, titled Shri P. R. Sharma Vs. UOI and OA No. 2674/

2009, titled Shri P. S. Bhandari Vs. UOI & Ors., pending before the CAT, New Delhi.

M. L. WADHWANI, Under Secy.

No. A-12012/4/2005-P.II.—In continuation of Notification of even Number dated 30.06.2010 and with the approval of the Department of Personnel & Training conveyed vide thier order No. 5/3/2010-CS.I(U) dated 15th June, 2011, the ad hoc appointment of Smt Samit Datta Gupta as Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Ministry of Environment & Forests is hereby extended upto 31.5.2012 or until the regular incumbent becomes available, whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion is subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of the CSS;
- (ii) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor;
- (iii) The Officers, who has not Completed/undergone level 'D' Training of the CSS, shall require to undergo and successfully complete the level 'D' Training within a period of six months;
- (iv) The ad hoc promotion of Officer shall be subject to the final outcome in the OA No. 3294/2009, titled Shri P. R. Sharma Vs. UOI and OA No. 2674/2009, titled Shri P. S. Bhandari Vs. UOI & Ors., pending before the CAT, New Delhi.

M. L. WADHWANI, Under Secy.

No. A-12012/4/2005-P.II.—In continuation of Notification of even Number dated 30.6.2010 and with the approval of the Department of Personnel & Training conveyed vide thier order No. 5/3/2010-CS.I(U) dated 15th June, 2011, the ad hoc appointment of Shri Madan Mohan Pandey as Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Ministry of Environment & Forests is hereby extended upto 31.5.2012 or until the regular incumbent becomes available, whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion is subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of the CSS;
- (ii) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor;
- (iii) The Officers, who has not Completed/undergone level 'D' Training of the CSS, shall require to undergo and successfully complete the level 'D' Training within a period of six months;

- (iv) The ad hoc promotion of Officer shall be subject to the final outcome in the OA No. 3294/2009, titled Shri P. R. Sharma Vs. UoI and OA No. 2674/2009, titled Shri P. S. Bhandari Vs. UoI & Ors., pending before the CAT, New Delhi.

M. L. WADHWANI, Under Secy.

No. A-12012/4/2005-P.II.—In continuation of notification of even Number dated 28.06.2010 and with the approval of the Department of Personnel & Training conveyed vide thier order No. 5/3/2010-CS.I(U) dated 15th June, 2011, the ad hoc appointment of Ms. Archana Srivastava as Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Ministry of Environment & Forests is hereby extended upto 31.5.2012 or until the regular incumbent becomes available, whichever is earlier.

2. The ad hoc promotion is subject to the following conditions :—

- (i) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I of the CSS;
- (ii) Ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor;
- (iii) The Officers, who has not completed/undergone level 'D' training of the CSS, shall require to undergo and successfully complete the level 'D' training within a period of six months;
- (iv) The ad hoc promotion of Officer shall be subject to the final outcome in the OA No. 3294/2009, titled Shri P. R. Sharma Vs. UoI and OA No. 2674/2009, titled Shri P. S. Bhandari Vs. UoI & Ors., pending before the CAT, New Delhi.

M. L. WADHWANI, Under Secy.

The 13th July 2011

No. A-32012/1/2005-P.II.—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 6/9/2010-CS.I (S) dated 7th July, 2011, the ad hoc appointment of the following Assistants of the CSS cadre of the Ministry of Environment & Forests as Section Officers in revised pay Structure PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,800/- (Grade Pay), is extended upto 30.09.2011, or till the regular Section Officers are made available, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name
1	2
1.	Smt. Sushma Sood
2.	Smt. Saroj Verma

1	2
3.	Sh. S. C. Jain
4.	Sh. Satish Mohan
5.	Sh. Praveen Kumar Jha
6.	Sh. Yashwant Singh
7.	Smt. Selsa Kerketta
8.	Sh. Swapan Banerjee
9.	Smt. Asha Mahajan
10.	Smt. Shobha Balakrishnan
11.	Sh. Pascal Ekka
12.	Sh. A. N. Ahuja
13.	Smt. Anjana Kumari
14.	Sh. Rahul Deo Diwakar
15.	Sh. Punit Kumar Ghosh
16.	Sh. Prem Kumar Mandal

2. The ad hoc appointment of Sh. Shiv Kumar, Assistant, of the CSS cadre of the Ministry of Environment and Forests as Section Officer in revised pay structure PB-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,800/- (Grade Pay), is extended upto 31.08.2011, or till the regular Section Officers are made available, whichever is earlier, as he is going to be superannuated on 31.08.2011.

3. The ad appointment will not confer on appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the SL of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers Grade of CSS. Ad hoc appointment would continue till regular candidates in Section Officer Grade are available either through Seniority Quota or Limited Departmental Competitive Exam. (LDCE). In the event of ad hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they shall be reverted to the Assistants' Grade on availability of such regular Officers from the date they (regular Section Officers) join duty in this Ministry.

M. L. WADHWANI, Under Secy.

The 14th July 2011

No. A-32012/2/2005-P.II.—Consequent upon their promotion to the post of Principal Private Secretary (PPS) on ad hoc basis and nomination to Ministry of Environment & Forests by the Department of Personnel & Training's vide their OM No. 20/31/2010-CS.II dated 30.11.2010 and OM No. 3/1/2011-CS.II(A) dated 30.5.2011, the President is pleased to appoint the following Private Secretaries of the CSSS cadre of the Ministry/Department mentioned against their names, as Principal Private Secretary of CSSS in the scale of Pay of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- purely on ad hoc basis in the Ministry of Environment & Forests with effect from date mentioned against their names,

for a period upto 30.09.2011 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name of the Officials	Cadre from where nominated to MoEF	Joining date
(Sh./Ms.)			
1.	N. Krishnamurthy	HRD	01.07.2011 (F/N)
2.	Harish Kumar Lakhera	Social Justice & Empowerment	01.07.2011 (F/N)

2. The appointment of these officers to the grade of PPS is purely on ad hoc basis and shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or claim seniority in the grade of PPS.

M. L. WADHWANI, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110108, the 19th June 2011

No. A-12025/47/2007-CHS.I—On the recommendations of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sripriya S. to the Medical Officer grade of the Central Health Service in the Scale of Pay of Rs. 15,600—39,100/- + 5,400/- (PB-3) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 26.08.2010 and until further orders. Dr. Sripriya S. is posted as Medical Officer under CGHS Delhi. She will be on probation for a period of two years from the date of appointment.

ARUN CHOWDHURY, Under Secy.

The 18th July 2011

No. A-12025/13/2009-CHS.VI—On the recommendations of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Dharendra Kumar as Dental Surgeon in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- (PB-3) on probation and to post him as Dental Surgeon at Central Government Health Scheme, Kanpur with effect from the forenoon of 15th January, 2010 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

The 19th July 2011

No. A-12025/28/08-CHS.III—On the recommendations of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ajay Kumar to the post of Assistant Professor in the Speciality of Paediatric in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 03.06.2009 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

The 22nd July 2011

No. A-12025/10/09-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Narinder Singh Jhajhria to the post of Assistant Professor in the Specialty of Cardio-Thoracic & Vascular Surgery (C.T.V.S.) in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 13.03.2010 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

No. A-12025/10/09-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Subodh Kumar Satyarthi to the post of Assistant Professor in the Specialty of Cardio-Thoracic & Vascular Surgery (C.T.V.S.) in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 23.07.2010 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

No. A-12025/34/09-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Pragya Sharma to the post of Assistant Professor in the Speciality of Preventive & Social Medicine (P. & S.M.) in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 09.02.2011 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi-110114, the 21st July 2011

No. A-32014/01/2010-Estt.-II—The President is pleased to appoint Shri M. Venkataraman, a regular Stenographer Grade 'C' of Ministry of Water Resources, as Stenographer Grade 'A&B' (Merged) Private Secretary Grade (Group 'B' Gazetted) of CSSS cadre of the Ministry of Rural Development, in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,800/- on ad hoc basis with effect from the forenoon of 15th July, 2011 and until further orders.

GEORGE Y., Under Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 11th July 2011

No. A-19011/11/2011-Estt.—Consequent on his promotion to the grade of Assistant Director (OL) vide Ministry of Home Affairs (Department of Official Language) Office Order No. 5/18/2010-OL (Service) dated 31.05.2011, Shri Shiv Darshan Kori has assumed the charge of Assistant Director (OL) in the Ministry of Culture w.e.f. the forenoon of 7th July, 2011.

VANITA SOOD, Under Secy.

The 14th July 2011

No. A-19011/6/2008-Estt.—Consequent upon inclusion of her name in the CSS Senior Selection Grade (Director) Select List for the Year 2011 vide Department of Personnel and Training's Office Order No. 3/2/2011-CS.I (D) dated 1st July, 2011, the President is pleased to appoint Smt. Rubina Ali, Deputy Secretary of the Central Secretariat Service (CSS) in the Ministry of Culture as Director in the same Ministry with effect from the forenoon of 1st July, 2011.

VANITA SOOD, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi, the 29th June 2011

No. A-12034/02/2009-Estt.II—The President is pleased to appoint Shri S. T. Venkatachalapathy, Under Secretary, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Department of Fertilizers as Additional Private Secretary to the Hon'ble Minister of State for Social Justice and Empowerment (Shri D. Napoleon) in Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the forenoon of 30.06.2011 till the tenure of the MoS (SJ&E) or until further orders, whichever is earlier.

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 18th July 2011

No. 19011/14/2008-Estt.—Consequent upon the inclusion of his name in the Select List of CSS 2011 in the Senior Selection Grade (Director) vide Department of Personnel and Training's Office Order No. 3/2/2011-CS.I(D) dated 01.07.2011, the President is pleased to promote and appoint Shri Konthang Touthang presently working as Deputy Secretary in the Ministry of Tribal Affairs to the post of Director in Ministry of Tribal Affairs with effect from the forenoon of 01.07.2011.

A. K. SAHA, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS**(RAILWAY BOARD)**

New Delhi, the 18th July 2011

No. E(GP)/2011/1/05.—The President is pleased to appoint the undermentioned Group 'B' Officer of Electrical Engineering Department of Indian Railways to the Junior Scale of Indian Railway Service of Electrical Engineers (IRSEE) with effect from 28.07.2000 on the Production Unit mentioned as under :—

Shri V. Guruswamy, I.C.F.

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

New Delhi, the 20th July 2011

No. A-12025/1/2010-E.II (Vol. II)—The President is pleased to appoint Shri Praveen Kumar Pendurthi as Assistant Executive Engineer (Civil) of Central Engineering Service (Roads) Group 'A' in the Ministry of Road Transport and Highways, New Delhi in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- with the Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 11.07.2011 (F.N.) and until further orders.

D. R. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF NEW & RENEWABLE ENERGY

New Delhi-110003, the 22nd July 2011

No. 8/3/07-Admn.I—Consequent upon their promotion to the Grade of Section Officer on ad hoc basis, the President is pleased to appoint the following Assistant to the post of Section Officers (ad hoc) of CSS Cadre in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Date of appointment
	(S/Shri)	
1.	Raja Ram	15.06.2010 (F/N)
2.	Kuldeep Sharma	15.06.2010 (F/N)
3.	D. K. Meena	13.10.2010 (F/N)
4.	C. K. Rajendra	29.10.2010 (F/N)
5.	Prem Sagar	21.07.2010 (F/N)
6.	Jagdish Kumar	10.08.2010 (F/N)

SURESH KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 14th July 2011

No. A-11019/1/2011-Admn.I—Consequent upon her re-nomination to the cadre of the Ministry of Urban Development on promotion as Principal Private Secretary (PPS) on CSSS on ad hoc basis vide Department of Personnel and Training's Order No. 3/1/2011-CS. II(A) dated 2nd June, 2011 read with OM dated 29th March, 2011, the President is pleased to appoint Mrs. Joyce Alex D' Souza, regular Steno Grade 'A&B' (merged) (Private Secretary) of CSSS cadre of Ministry of Labour & Employment (Directorate General Factory Advice & Labour Institute) to the Post of Principal Private Secretary in the scale of PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- on ad-hoc basis with

effect from the forenoon of 4th July, 2011, for the period upto 30.09.2011 or till the the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment of the above officer to the grade of PPS is purely on ad hoc basis and shall not confer on her any right to continue in the grade indefinitely or claim seniority in the grade of PPS.

JITENDER KUMAR, Under Secy.

No. A-11019/1/2011-Admn.I—Consequent upon her re-nomination to the cadre of the Ministry of Urban Development on promotion as Principal Private Secretary (PPS) on CSSS on ad hoc basis vide Department of Personnel and Training's Order No. 3/1/2011-CS. II(A) dated 2nd June, 2011 read with OM dated 29th March, 2011, the President is pleased to appoint Ms. Lalitha Ramachandran, regular Steno Grade 'A&B' (merged) (Private Secretary) of CSSS cadre of Ministry of Labour & Employment (Directorate General Factory Advice & Labour Institute) to the post of Principal Private Secretary in the scale of PB-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 27th June, 2011, for the period upto 30.09.2011 or till the the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment of the above officer to the grade of PPS is purely on ad hoc basis and shall not confer on her any right to continue in the grade indefinitely or claim seniority in the grade of PPS.

JITENDER KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 20th July 2011

No. A-31014/01/2011-ISH.II—The President is pleased to appoint the following Officers to the post mentioned against their names in the office of Directorate General of Mines Safety, Dhanbad with effect from the dates indicated against the name of each Officer in a substantive capacity :—

Sl. No.	Name	Name of the post	Date of Substantive appointment
(S/Shri)			
1.	Supriya Chakraborty	Deputy Director of Mines Safety (Mining)	07.05.2010
2.	S. Chandramauli	-do-	12.02.2010
3.	T. R. Kannan	-do-	02.03.2010
4.	Niraj Kumar	-do-	04.05.2010
5.	Muralidhar Bidari	-do-	26.02.2010
6.	Saifullah Ansari	-do-	06.03.2010
7.	Vinodanand Kalundia	-do-	27.02.2010
8.	Manish Chandra Jaiswal	-do-	27.02.2010
9.	Murli Dhar Mishra	-do-	31.03.2010
10.	Ajay Singh	Deputy Director of Mines Safety (Electrical)	26.02.2010
11.	Thammisetty Srinivas	-do-	30.03.2010
12.	Parmanand Kumar Singh	Deputy Director of Mines Safety (Mechanical)	30.12.2009

VANDANA SHARMA, Dir.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2011

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2011